

सम-सामयिक **घटना चक्र**

अतिरिक्तांक

**GS**  
**प्राइंटर**

(पूर्वावलोकन सार)

नि:शुल्क  
फरवरी-मार्च, 2018  
अंक के साथ

**सामाज्य भूगोल**  
(विश्व का भूगोल)

शुंखला का अगला अंक - **सामाज्य विज्ञान**

# Download All Subject Free PDF



General Knowledge



Child Development  
and Pedagogy



Current Affairs



History



Maths



Geography



Reasoning



Economics



Science



Polity



Computer



Environment



General Hindi



MP GK



General English



UP GK

Join Our Best Course

GK Trick By  
Nitin Gupta



Current Affairs



# Daily Current Affairs PDF, Best Test Series, Best GK PDF के लिए हमें Follow करें




GK Trick By Nitin Gupta  
The Ultimate Key to Success.

Welcome To

## GK TRICK BY NITIN GUPTA APP

यहाँ पर आपको मिलेगा

- ✓ Best PDF Notes For All Exams
- ✓ Best Test Series For All Exams
- ✓ Daily Current Affairs PDF
- ✓ सभी Course बहुत ही कम Price पर
- ✓ सभी Test Detail Description के साथ व Analysis करने को सुविधा



# GSप्लाइंटर 4

## विश्व का भूगोल

2017, अगस्त माह से सम-सामयिक घटना चक्र मुख्य पत्रिका के साथ निःशुल्क अतिरिक्तांक की शृंखला प्रारंभ की गई है। शृंखला में सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों पर 'GS प्लाइंटर' क्रमशः प्रस्तुत किया जा रहा है।

### ब्रह्माण्ड

#### i. सामान्य अवधारणा

- \* महाविस्फोट सिद्धांत (Big-Bang Theory) संबंधित है  
—ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से
- \* महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था —जॉर्ज लेमेटेयर ने
- \* वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमण्डल स्थित है  
—मंदकिनी या आकाशगंगा या दुर्गम ग्रेहण (Milky Way)
- \* आकाशगंगा (Milky Way) वर्गीकृत की गई है  
—सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में
- \* ब्रह्माण्ड वर्ष (Cosmic year) कहलाता है —सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय।
- \* हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है —22 से 25 करोड़ वर्ष
- \* तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है —प्रोटो स्टार का निर्माण
- \* तारे का रंग सूचक है —उसके ताप का
- \* वह सीमा, जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं —चंद्रशेखर सीमा
- \* तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है —कृष्ण विवर
- \* कृष्ण छिद्र (Black Hole) सिद्धांत को प्रतिपादित किया था —एस. चंद्रशेखर ने
- \* कथन (A) : कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता।

**कारण (R) :** कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वायी क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता।

—(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।

- \* 'कृष्ण छिद्र' अंतरिक्ष में एक पिंड है, जो किसी भी प्रकार के विकिरण (Radiation) को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका —बहुत उच्च घनत्व
- \* 'सुपर नोवा' है —एक मृतप्राय तारा
- \* अंतरिक्ष में तारामण्डलों (Constellations) की संख्या है —88
- \* पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं—खगोलीय उस्तुएं
- \* अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है —ब्रिटल स्टार, कृष्ण मास्टर
- \* एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है —नक्षत्र
- \* हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है —बीटलग्यूस
- \* सौरमण्डल के सभी आठ ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है —पृथ्वी का ( $5.5 \text{ g/cm}^3$ )
- \* पृथ्वी और सूर्य के बीचों-बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि
  - 1. आकाश स्याह काला है, 2. तारे टिमटिमाते नहीं हैं
- \* पृथ्वी के संघटन में मुख्य तत्व हैं
  - लोहा (35%), ऑक्सीजन (30%) एवं सिलिकन (15%)
- \* 'प्रकाशवर्ष' इकाई है —दूरी की
  - एक प्रकाशवर्ष (Light Year) में होता है — $9.461 \times 10^{15}$  मीटर

- \* तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है —प्रकाशवर्ष
- \* यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थित होता है —विषुवत रेखा पर
- \* जिस तारामण्डल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह है —साप्तऋषि

## ii. सौरमण्डल

- \* सौरमण्डल का भाग नहीं है —निहारिका
- \* सूर्य हमारे सौरमण्डल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया —कॉपरनिक्स ने
- \* सौरमण्डल का निर्माण हुआ था —4.6 लियन वर्ष पूर्व
- \* हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है —हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है।
- \* सौरमण्डल में ग्रहों की संख्या है —8 (अगस्त, 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी)
- \* सूर्य से दूरी के क्रम में, वह दो ग्रह, जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं —बृहस्पति और शनि
- \* ग्रह, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित हैं —बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेच्यून
- \* सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है —बुध एवं शुक्र
- \* पृथ्वी स्थित है —शुक्र एवं मंगल के मध्य
- \* ग्रहों के बारे में सत्य कथन है —ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं।
- \* सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—

**सूची-I**

(विशेष लक्षण)

सौरमण्डल का सबसे छोटा ग्रह

सौरमण्डल का सबसे बड़ा ग्रह

सौरमण्डल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह

सूर्य के निकटतम ग्रह है

सौरमण्डल का मन्दतम गति वाला ग्रह है

आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है

—बृहस्पति, शनि, यूरेनस (अरुण), पृथ्वी

हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं, जो विद्यमान होती हैं—

—बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर

'गोल्डीलॉक्स जोन' (Goldilocks Zone) शब्द का संदर्भ है

—भू-पृष्ठ के ऊपर वास्योग्य मण्डल की सीमाएं (आवासीय क्षेत्र)

**सूची-II**

(ग्रह का नाम)

बुध

बृहस्पति

शुक्र

—बुध

—वरुण

—बुध एवं शुक्र

—किसी पिंड का एलिंडो, परावर्तित प्रकाश में देखने पर, उसकी चाक्षुप द्युति (Brightness) निर्धारित करता है।

\* सही सुमेलन है-

सूची-I

सूची-II

ग्रह

यूरेनस

उपग्रह

चंद्रमा

पुच्छल तारा

हैली

कृत्रिम उपग्रह

मेराइनर

## iii. सूर्य

- \* सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं—गैस और प्लाज्मा के रूप में
- \* सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है —नाभिकीय संलयन द्वारा
- \* हीरक वलय (Diamond Ring) एक दृश्य है, जिसे देखा जा सकता है —केवल पूर्णतया पथचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर
- \* सूर्यग्रहण होता है —प्रतिपदा (New Moon Day) को
- \* प्रत्येक सूर्यग्रहण होता है —केवल अमावस्या के दिन
- \* सूर्यग्रहण होता है —चंद्रमा, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है
- \* खग्रास (पूर्ण) सूर्यग्रहण केवल सीमित भू-क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि —पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है।
- \* सूर्य का प्रभामण्डल (Halo) प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है —पक्षाभ मेघों के हिम रूपियों में
- \* एक खगोलीय एकक (One Astronomical Unit) औसत दूरी है —पृथ्वी और सूर्य के बीच की
- \* सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है — $150 \times 10^6$  किमी.
- \* सूर्य से पृथ्वी की दूरी है —149.6 मिलियन किमी.
- \* पृथ्वी, सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है —3 जनवरी को
- \* सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है —109.2 गुना

## iv. बुध

- \* वह ग्रह, जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है —बुध (87.96 दिन में)
- \* दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे हैं —बुध एवं शुक्र
- \* सत्य कथन है —किसी पिंड का एलिंडो, परावर्तित प्रकाश में देखने पर, उसकी चाक्षुप द्युति (Brightness) निर्धारित करता है।

## v. शुक्र

- \* सौरमण्डल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है —शुक्र
- \* 'Evening Star' कहते हैं —शुक्र (Venus) को
- \* वह ग्रह जिसको 'भोर का तारा' के नाम से जाना जाता है —शुक्र

\* कथन (A) : शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है।

कारण (R) : शुक्र के वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है।

—(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

\* पृथ्वी की जुँड़ियां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है —शुक्र

\* मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था —शुक्र के लिए

## vii. पृथ्वी

\* पृथ्वी गोलाकार है। सर्वप्रथम कहा था —अरस्टू ने

\* एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है —ग्रीन प्लैनेट

\* पृथ्वी का व्यास है —12,756 किमी.

\* कथन (A) : पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है।

कारण (R) : पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है।

—(A) गलत है, परंतु (R) सही है।

\* पृथ्वी के तरल अभ्यन्तर (outer core) के समान चंद्रमा का अभ्यन्तर है —श्यान द्रव

\* भू-पर्फटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है —ऑक्सीजन

\* पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग —8 मिनट 17 सेकंड

\* वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है —सूर्य

\* पृथ्वी का निकटतम ग्रह है —शुक्र

\* पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, लगभग —365.25 दिन

\* अपने परिक्रमा-पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह है —29.8 किमी./सेकंड

\* पृथ्वी परिप्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब-करीब दूरी तय कर लेती है —27.83 किमी.

\* पृथ्वी की परिक्रमण धूरी (ध्रुवीय धूरी) सदा झुकी होती है —दीर्घवृत्तीय धूरी से  $23.5^{\circ}$  पर

\* सत्य कथन है —पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है।

\* सत्य कथन है —पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है।

\* दिन-रात जिस कारण होते हैं, वह है —भू-परिप्रमण

\* जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं —भूमध्य रेखा पर

\* मौसम बदलने का कारण है —पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना।

\* पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए (उदाहरणार्थ दिल्ली शहर) दिन में (उदाहरणार्थ दोपहर बारह बजे) वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि —पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं।

\* अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक-चौथाई कम हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना होगी

—हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी।

\* पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है — $-23^{\circ}$  अक्षांश के पास

\* कथन (A) : कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं।

कारण (R) : पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है।

—(A) गलत है, परंतु (R) सही है।

\* पृथ्वी के परितः धूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद —पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में धूमती रहेगी।

\* पृथ्वी ग्रह की संरचना में, प्रावार (मेंटल) के नीचे, क्रोड (Core) बना होता है —लौह और निकेल से

\* विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है —22 अप्रैल को

## viii. मंगल

\* 'एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है।' सही है —मंगल ग्रह के विषय में

\* कथन (A) : पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है।

कारण (R) : मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। —(A) गलत है, परंतु (R) सही है।

\* मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवश्य जो सबसे सुसंगत है —बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति

\* पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, वह है —यूरोप (बृहस्पति का उपग्रह)

\* फीनिक्स मार्श लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उत्तरा था —25 मई, 2008 को

## viii. बृहस्पति

- \* बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी —गैलीलियो द्वारा
- \* सौरमण्डल में सबसे बड़ा ग्रह है —बृहस्पति
- \* सौरमण्डल का सबसे भारी ग्रह है —बृहस्पति
- \* सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है —वरुण
- \* बृहस्पति का वलय होता है —सिलिकेटों का बना हुआ
- \* वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं —बृहस्पति

## ix. शनि

- \* शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है —29.5 वर्ष
- \* वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है —शनि
- \* अपनी यात्रा के सात वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून, 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया, वह है —शनि
- \* शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है, वह है —नेप्च्यून
- \* टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है —शनि का

## x. अरुण, वरुण एवं प्लूटो

- \* यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है —84 वर्ष
- \* जिस ग्रह/बैना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है, वह है —प्लूटो
- \* इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है —प्लूटो
- \* सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है —बुध
- \* सौरमण्डल का सबसे ठंडा ग्रह है —नेप्च्यून
- \* सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है —कभी वरुण, कभी यम
- \* निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं —प्लूटो के

## xi. चंद्रमा

- \* मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था —वर्ष 1969 में
- \* 'सी ऑफ ट्रांसिलिटी' (शांति का सागर) स्थित है —चंद्रमा पर
- \* कथन (A) : चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है।

**कारण (R) :** चांद अपने अक्ष पर  $23\frac{1}{2}$  दिवस में धूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उत्तरी ही अवधि है, जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है।

—(A) सही है, परंतु (R) गलत है।

- \* कथन (A) : पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है।

**कारण (R) :** अपने अक्ष पर चंद्रमा के धूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर धूमने के काल के बराबर होता है।

—(A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R),

(A) का सही स्पष्टीकरण है।

- \* चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक-दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि —चंद्रमा पर वायुमण्डल नहीं है।

- \* चंद्रग्रहण होता है, जब

—सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है।

- \* वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है —पूर्ण चंद्र (Full Moon)

- \* 14 नवंबर, 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था

—चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के

कारण अर्थात् पूर्ण उपग्रह (Full-Perigee) पर होना

- \* जब अर्द्ध चंद्र होता है, तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है —90°

- \* सौरमण्डल में चंद्रमा है —पृथ्वी का उपग्रह

- \* सुमेलित हैं—

|      |        |
|------|--------|
| ग्रह | यूरेनस |
|------|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| उपग्रह | चंद्रमा |
|--------|---------|

|             |      |
|-------------|------|
| पुच्छल तारा | हेली |
|-------------|------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| कृत्रिम उपग्रहयान | मैरिनर |
|-------------------|--------|

- \* 'ब्लू मून' परिघटना होती है —जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है।

- \* जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो —उसका भार घट जाता है।

- \* चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है —384400 किमी.

## xii. क्षुद्रग्रह

- \* मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं —क्षुद्रग्रह

- \* क्षुद्रग्रहों के विषय में सही कथन है

—क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी. तक बड़ा है।

- \* सौरमण्डल में क्षुद्रग्रह (एस्ट्रॉयड) छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, वे हैं —मंगल और बृहस्पति

- \* क्षुद्रग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है

—क्षुद्रग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं (प्लेनेटॉयड) हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित ऐसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते।

## xiii. धूमकेतु एवं उल्का

- \* धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिस्त होती है, क्योंकि
  - सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर ऐज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है।
- \* 'हेल-बॉप' नाम है
  - पुच्छल तारा/धूमकेतु का
- \* शूमेकर-लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था, वह है —बृहस्पति
- \* उल्का (Meteor) है
  - बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गायुमण्डल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश

## पृथ्वी

### i. अक्षांश

- \*  $91^{\circ}$  उत्तर,  $45^{\circ}$  पूर्व,  $45^{\circ}$  दक्षिण एवं  $91^{\circ}$  पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है, वह है  $-45^{\circ}$  दक्षिण
- \* एक ग्लोब पर अक्षांशों में वृहत वृत्त होती है — विषुवत रेखा
- \* प्रधान याम्योत्तर (ध्रुववृत्तीय) तथा विषुवत (भूमध्य) रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है —अंध महासागर में

### ii. देशान्तर

- \* काहिरा का समय ग्रीनविच से दो घंटा आगे है, अतः यह स्थित है— $-30^{\circ}$  पूर्व देशान्तर पर
- \* जब  $82^{\circ}30'$  पू. देशान्तर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः के  $6.30$  बजेंगे  $-0^{\circ}$  पू. या प. देशान्तर पर
- \* यदि दो स्थानों की स्थिति में  $90$  डिग्री देशान्तर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा  $-6$  घंटे
- \* जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय  $5$  बजे सायं है। वह जगह अवस्थित है  $-75^{\circ}$  पू. देशान्तर पर
- \* वह देशान्तर, जो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत-वृत्त का निर्माण करता है  $-180^{\circ}$  देशान्तर
- \* नई सहस्राब्द के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक याम्योत्तर (Meridians) में दिखाई दी, यह है  $-93^{\circ}30' E$
- \* किसी स्थान का मानक समय (Standard Time) निर्धारित करने का आधार होता है —प्रधान मध्याह्न रेखा
- \* प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है —नाइजर से
- \* प्रधान याम्योत्तर गुजरती है —कुल 9 देशों (यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किनाफासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका (दक्षिण ध्रुव) से

- \* अक्रा, डब्लिन, मिडिल एवं लिस्बन में से जिनका समय GMT के समान है, वह है —अक्रा, डब्लिन, लिस्बन
- \* ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है
  - जापान, इराक, ग्रीस (यूनान), क्यूबा, कोस्टारिका
- \* जब I.S.T. याम्योत्तर (Meridian) पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह  $6.00$  बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशान्तर (Longitude) है  $-90^{\circ} W$
- \* ग्रीनविच से दोपहर  $12.00$  बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में  $12$  मिनट का समय लगा। वह एक नगर में  $6.00$  बजे सायं को पहुंचा। नगर का देशान्तर होगा  $-87^{\circ}$  पू.
- \* अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा (International Date Line) गुजरती है —प्रशान्त महासागर से होकर
- \* कथन (A): तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से  $12$  घंटे का अंतर है। कारण (R): तिथि निर्धारक रेखा  $180$  डिग्री देशान्तर पर स्थित है।
  - (A), (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की व्याख्या करता है।
- \* ग्लोब की वह देशान्तर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है —अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
- \* यदि पृथ्वी के धूर्घन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय होगा  $-06.30$  बजे (सुबह)
- \* वह जलडमरुमध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है —बेरिंग जलडमरुमध्य
- \* किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशान्तर में से मार्ग बनाना चाहिए —देशान्तर को
- \* किसी जगह का स्थानीय समय  $6.00$  प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम (जी.एम.टी.)  $3.00$  प्रातः है। उस जगह की देशान्तर रेखा होगी  $-45^{\circ}$  पूर्व

### iii. विषुवत रेखा/भूमध्य रेखा

- \* पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, लगभग  $-40,000$  किमी।
- \* भूमध्य रेखा गुजरती है —कुल 13 देशों (साओटोम और पिसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलम्बिया एवं ब्राजील) से।
- \* जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर (Annual Range of Temperature) न्यूनतम होता है, वह है —भूमध्य रेखा
- \* कोलम्बो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है —सिंगापुर

- \* भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं, वह महाद्वीप है

—अफ्रीका

## iv. कर्क एवं मकर रेखा

- \* मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है —66.5°
- \* कर्क रेखा गुजरती है—हवाई द्वीप (U.S.A.), ऐसिसको, बहमास, मारी, मॉरीतानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, स्थानांतर, चीन, ओमान एवं ताइवान से।
- \* मकर रेखा गुजरती है—ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागार्स्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, द. अफ्रीका, फ्रेंच पोलीनेशिया (फ्रांस), बोत्सवाना एवं नामीबिया से।
- \* जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब —उत्तर-पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है।

## v. दिन-रात

- \* विषुव या इक्विनॉक्स (Equinox) वर्ष के दो काल, जब दिन और रात बराबर होते हैं, होता है —20/21 मार्च और 22/23 सितंबर को
- \* वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं —भूमध्य रेखा पर
- \* उत्तरी गोलार्द्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा —विषुव रेखा पर
- \* उत्तरी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है —21/22 दिसंबर को
- \* वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा —20/21 जून को
- \* दक्षिणी गोलार्द्ध में सबसे बड़ा दिन है —21/22 दिसंबर
- \* ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है —20/21 जून को
- \* वह तिथि जिसमें दोपहर को आप की छाया सबसे छोटी होती है —21 जून

## vi. पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक

### इतिहास

- \* वह विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है —ओ. शिंडे
- \* पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं, वह है —यूरेनियम डेटिंग
- \* महान हिमयुग का संबंध है —प्लीस्टोसीन युग से

- \* वह काल जिसको प्रायः 'लघु हिमकाल' माना गया है —1300 ई. से 1870 ई.
- \* डायनासोर का काल था —आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व महाद्वीपों के अलग होने का कारण है —विर्वतनिक क्रिया
- \* भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भू-भाग शामिल है, वह है —दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया
- \* पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे कहते हैं —पैंजिया
- \* महाद्वीपों में से गोंडवानालैंड का भाग नहीं था —उत्तरी अमेरिका
- \* पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल है —लगभग 3.5 विलियन वर्ष पूर्व
- \* वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा —महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र
- \* वलन-क्रिया परिणाम है —पर्वत-निर्माणकारी बल का
- \* पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं —विद्युत-चुंबकीय विकिरण, भू-तापीय ऊर्जा, गुरुत्वायी बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण

### चट्टानें

- \* सही कथन है —परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व-विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं।
- \* अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है —ये शैले स्तरों में निष्केपित हैं।
- \* बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि वह —पानी के नीचे बनती है।
- \* आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है —वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं।
- \* क्रांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं —ग्रेनाइट में
- \* रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है —आग्नेय तथा तलछटी दोनों से
- \* ग्रेनाइट उदाहरण है —आग्नेय चट्टानों का
- \* अवसादी शैल का उदाहरण है —बालुका पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि।

# ज्वालामुखी

- \* ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है, वह है —जलवाष्प
- \* विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी पर्वत है —माउंट कोटोपैक्सी
- \* पृथ्वी के अंदर पिंगले पदार्थ को कहते हैं —मैग्मा
- \* लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं —प्लॉटेनिक चट्टानें
- \* ज्वालामुखीय उद्गार (Volcanic Eruptions) नहीं होते हैं

—बाल्टिक सागर में

—एक ज्वालामुखी

- \* माउंट एटना पर्वत है
- \* ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है —संयुक्त राज्य अमेरिका में
- \* 'मौनालोआ' एक सक्रिय ज्वालामुखी है —हवाई द्वीप (U.S.A.) का
- \* आकार की टृप्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है —हवाई द्वीप में स्थित मौनालोआ (Maunaloa)

- \* सक्रिय ज्वालामुखी हैं —कोटोपैक्सी, एटना, पफ्टूजीयामा, विसुवियस
- \* अफ्रीका का सर्वार्द्ध पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है —तंजानिया में

- \* किलिमंजारो (Kilimanjaro) है, एक —आग्नेयगिरि (Volcano)
- \* ज्वालामुखी जिसे 'भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ' कहा जाता है, वह है —स्ट्रास्बौली

- \* संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है —किलायू
- \* सही सुमेलन है-

**सूची-I**                           **सूची-II**

|            |           |
|------------|-----------|
| एटना       | सिसिली    |
| विसुवियस   | इटली      |
| येरिबस     | रास द्वीप |
| कोटोपैक्सी | इक्वाडोर  |

- \* सही सुमेलन है-
- सूची-I**                           **सूची-II**

- |              |          |
|--------------|----------|
| (ज्वालामुखी) | (देश)    |
| माउंट रैनियर | यू.एस.ए. |
| एटना         | इटली     |
| पैरिकुटिन    | मेक्सिको |
| टाल          | फिलीपींस |

- \* सही सुमेलन है-
- सूची-I**                           **सूची-II**

|                |         |
|----------------|---------|
| माउंट किनाबालू | मलेशिया |
| अल-बुर्ज       | ईरान    |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| अंकाकागुआ        | अर्जेटीना      |
| किलीमंजारो       | तंजानिया       |
| * सही सुमेलन है- |                |
| <b>सूची-I</b>    | <b>सूची-II</b> |
| (ज्वालामुखी)     | (देश)          |
| सबनकाया          | पेरु           |
| कोलिमा           | मेक्सिको       |
| माउंट मेरापी     | इंडोनेशिया     |


## भूकम्प

- \* भूकम्प के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है, वह है—पी.एस.एल. (Primary- Secondary, Lave or Surface Wave)
- \* 'रिंग ऑफ फायर' संबद्ध है —भूकम्प, ज्वालामुखी एवं, प्रशान्त महासागर से
- \* सत्य कथन हैं —भूकम्प की तीव्रता को मरकेली रकेल पर नापा जाता है, भूकम्प का मैग्नीट्यूड विसुक्त ऊर्जा की नाप है, भूकम्प के मैग्नीट्यूड भूकम्पी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित हैं।
- \* रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है, नापने के लिए —भूकम्प की तीव्रता
- \* सिस्मोमीटर मापता है —भूकम्प को
- \* 'सुनामी' शब्द संबंधित है —जापानी भाषा से
- \* जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था —फुकुशीमा
- \* भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर-पश्चिम प्रदेश भूकम्प ग्रहणशील है, जिसका कारण है —प्लेट टेक्टॉनिक क्रिया

## महाद्वीप

- \* वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है—अफ्रीका (54 देश)
- \* क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे बड़ा महाद्वीप है —एशिया
- \* महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है —एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं आस्ट्रेलिया
- \* विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं —ऑस्ट्रेलिया और यूरोप
- \* महाद्वीप, जिसमें प्रति वर्क्टि भूमि सर्वाधिक है —ऑस्ट्रेलिया में
- \* वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊँचाई वाला है —दक्षिणी ध्रुव (अंटार्कटिका)

- \* दिए गए मानवित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिह्नित भौतिक क्षेत्र ऋमशः हैं—



- एंडीज, ब्राजीलियन शील्ड,  
युगाना उच्च भूमि और अमेजन वेसिन  
—उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में  
वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत  
सर्वाधिक है—यूरोप

\* एटलस पर्वत अवस्थित है

- \* वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत  
सर्वाधिक है

\* सही सुमेलन है—

| सूची-I      | सूची-II  |
|-------------|----------|
| (पर्वत)     | (देश)    |
| अलेघनी      | यू.एस.ए. |
| कैंटाब्रियन | स्पेन    |
| एलबुर्ज     | ईरान     |
| मैकेंजी     | कनाडा    |

\* सही सुमेलन है—

| सूची-I       | सूची-II    |
|--------------|------------|
| (पर्वत शिखर) | (महाद्वीप) |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| कोसिस्को   | ऑस्ट्रेलिया              |
| मैकिन्टो   | उत्तरी अमेरिका (अलास्का) |
| अल्बूस     | यूरोप                    |
| किलिमंजारो | अफ्रीका                  |

\* सही सुमेलन है—

| सूची-I        | सूची-II          |
|---------------|------------------|
| आल्प्स        | वलित पर्वत       |
| वोस्जेज       | भ्रंशोत्थ पर्वत  |
| विंध्य        | अवशिष्ट पर्वत    |
| फ़्रान्जीयामा | ज्वालामुखी पर्वत |

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| माउंट टिटिलिस स्थित है                           | —स्विट्जरलैंड में            |
| इटली में अवस्थित पर्वत है                        | —एपीनाइन                     |
| फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है | —पेरिनीज                     |
| गोलन हाइट्स स्थित है                             | —मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में |

## विश्व की पर्वत श्रेणियाँ

- \* 'पर्वतों का सागर' कहा जाता है —ब्रिटिश कोलंबिया को  
\* विश्व की सर्वाधिक ऊँची पर्वत शृंखला है —एंडीज  
\* एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है, वह है —दक्षिण अमेरिका  
\* दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं —न्यूजीलैंड में  
\* आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है —फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में  
\* यूरोप की एक पर्वत शृंखला है —आल्प्स  
\* ह्वाइट पर्वत पाए जाते हैं —संयुक्त राज्य अमेरिका में  
\* भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है —बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप  
\* हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है, वह है— —स्यांमार  
\* ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है —जर्मनी में  
\* राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है —ब्लैक फॉरेस्ट  
\* ब्लैक पर्वत अवस्थित है —यू.एस.ए. में  
\* पैनाइन (यूरोप), अप्लेशियन (अमेरिका) और अरावली (भारत) उदाहरण हैं —पुरानी पर्वत शृंखला के  
\* ड्राकेन्स्बर्ग पर्वत है —दक्षिण अफ्रीका में  
\* एटलस पर्वत स्थित है —अफ्रीका महाद्वीप (मोरक्को, अल्जीरिया एवं ल्यूनीशिया) में

- \* माउंट टिटिलिस स्थित है —इटली में अवस्थित पर्वत है  
\* फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है —फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है  
\* गोलन हाइट्स स्थित है —मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में

## पठार एवं घाटियाँ

- \* तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है —5 किमी.  
\* दक्षिणी अमेरिका में 'खनिजों का भंडार' कहा जाता है —पैटागोनिया के पठार को  
\* पठार पर स्थित नगर है —मैड्रिड  
\* 'संसार की छत' (Roof of the World) कहते हैं —पामीर के पठार को  
\* संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित 'मृतक घाटी' (डेथ वैली) उदाहरण है —रिफ्ट घाटी का  
\* 'शैतान का गोल्फ कोर्स' (डेविल्स गोल्फ कोर्स) नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी (डेथ वैली) स्थित है —यू.एस.ए. में  
\* मृतक घाटी जानी जाती है —अत्यधिक उष्णता के लिए  
\* पंजशीर घाटी अवस्थित है —अफगानिस्तान में  
\* संयुक्त राज्य अमेरिका में 'सिलिकन वैली' अवस्थित है —कैलिफोर्निया में

- \* टेलर घाटी अवस्थित है
- \* 'ग्रेट आर्टिजन बेसिन' अवस्थित है
- \* बहुत बेसिन (Great Basin) अवस्थित है
- \* राजाओं की घाटी अवस्थित है
- \* अंधी घाटियां पाई जाती हैं

—अंटार्कटिका में  
—ऑस्ट्रेलिया में  
—यू.एस.ए. में  
—मिस्र में  
—कार्स्ट प्रदेश में

## शुष्क प्रदेश/मरुस्थल

- \* कथन (A) : मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं।
  - कथन (R) : जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल छह घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं।
- (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा  
(R),(A) की सही व्याख्या है।

- \* मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, उस क्षेत्र के रूप में जहां —वार्षिक वर्षा 25 सेमी. से कम होती हो।
- \* विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान (मरुस्थल) है —सहारा
- \* संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है —थार
- \* तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है —चीन में
- \* सही सुमेलन है—  
(मरुस्थल) (देश)  
सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका  
तकला मकान चीन  
कराकुम तुर्कमेनिस्तान  
गिर्बन ऑस्ट्रेलिया

- \* दश-ए-लुट अवस्थित है
- \* गोबी (Gobi) मरुस्थल स्थित है
- \* दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है
- \* अठाकामा मरुस्थल अवस्थित है
- \* पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है
- \* शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है
- \* सत्य कथन है —विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतरों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं।
- \* कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है —बोत्सवाना, नामीबिया एवं द. अफ्रीका में
- \* दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित मरुस्थल है —कालाहारी
- \* अफ्रीकी और यूरोपियाई मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है —यह उपोष्ण उच्च दाढ़ कोशिकाओं (हाई प्रेशर सेल) में अवस्थित है।

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| * सही सुमेलन इस प्रकार है—<br>(घास मैदान)                 | (स्थिति)                      |
| प्रेरीज                                                   | उत्तरी अमेरिका                |
| पम्पाज/लानोज                                              | दक्षिणी अमेरिका (अर्जेटीना)   |
| स्टेपीज                                                   | यूरोप                         |
| वेल्ड                                                     | दक्षिणी अफ्रीका               |
| * सही सुमेलन है—<br>(देश)                                 | (घास के मैदान)                |
| केन्या                                                    | सवाना                         |
| अर्जेटीना                                                 | पम्पास                        |
| वेनेजुएला                                                 | लानोज                         |
| सं. रा. अमेरिका                                           | प्रेरीज                       |
| * सवाना का सर्वाधिक विस्तार है                            | —अफ्रीका महाद्वीप में         |
| * दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है | —पम्पास                       |
| * सही सुमेलन है—<br>सवाना                                 | उष्णकटिबंधीय घास का मैदान     |
| स्टेपीज                                                   | शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान |
| सेल्वास                                                   | उष्णकटिबंधीय वन               |
| टैगा                                                      | शीतोष्ण कटिबंधीय वन           |

## विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं

- \* जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है —चीन
- \* ब्राजील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है —कनाडा-संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन-ब्राजील
- \* दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है —अर्जेटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील
- \* दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है —मालदीव
- \* वह देश जिसकी समुद्रतट रेखा सर्वाधिक लंबी है —कनाडा की
- \* भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है —बांगलादेश
- \* नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं, जो पूर्ववर्ती सेवियत संघ के भाग थे। उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं—



1, 2, 3, 4 और 5 से अंकित देश हैं, क्रमशः:

—कजाखस्तान, तुर्कमेनिया, उज्बेकिस्तान,  
किर्गिजिया, ताजिकिस्तान

\* आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाखस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है

—आर्मेनिया

\* दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है A, B, C और D से अंकित देश क्रमशः हैं




—इराक, सीरिया, सऊदी अरब और जॉर्डन

\* इस्राइल के साथ साझी सीमाएं हैं

—लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र से।

\* चीन के साथ सीमावर्ती देश हैं —मंगोलिया, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया।

\* नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए—



मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से अंकित देश क्रमशः इस प्रकार हैं—

—लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया

- \* 'हार्न ऑफ अफ्रीका' (सोमाली प्रायद्वीप) के अंग हैं  
—सोमालिया, इथिओपिया, इरीट्रिया तथा जिबूती
- \* वह देश जिसकी सीमा एडियाटिक सागर से लगती है  
—अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोटेनेग्रो
- \* बाल्कन देश हैं —अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, बुलारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि।
- \* सिएरा लियोन अवस्थित है —पश्चिमी अफ्रीका में
- \* पोलैण्ड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है —यूक्रेन
- \* सत्य कथन है —इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है।
- \* ओशीनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में, समिलित देशों की संख्या है —14
- \* स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में समिलित है  
—नार्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैण्ड (भौगोलिक आधार पर)  
—स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क (ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भाषायी आधार पर)
- \* ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है —रूस की
- \* भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं —थाईलैंड, लाओस और बांगलादेश

## अधीन क्षेत्र

|                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| * सही सुमेलन है-                                                                           |                                 |
| सूची-I<br>(देश)                                                                            | सूची-II<br>(अधीन क्षेत्र)       |
| ऑस्ट्रेलिया                                                                                | क्रिसमस द्वीप                   |
| डेनमार्क                                                                                   | ग्रीनलैंड                       |
| यू.एस.ए.                                                                                   | सांताक्रूज                      |
| फ्रांस                                                                                     | मार्टिनिक                       |
| * वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है | —ग्रीनलैंड                      |
| * सही सुमेलन है-                                                                           |                                 |
| सूची-I<br>(विश्व के द्वीप)                                                                 | सूची-II<br>(स्वामित्व वाला देश) |
| एल्युशियन द्वीप                                                                            | यू.एस.ए.                        |
| बियर द्वीप                                                                                 | नॉर्वे                          |
| ग्रीनलैंड                                                                                  | डेनमार्क                        |
| फ्रैंज जोसेफ द्वीप                                                                         | रूस                             |

# स्थलरुद्ध देश

- \* अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लकजमर्बर्ग में से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है —लाइबेरिया
- \* अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावृत्त देश है —चाड
- \* दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाइलैण्ड में से स्थल अवरुद्ध देश है —लाओस
- \* बोलीविया है —एक स्थलरुद्ध देश
- \* सही सुमेलन है

## सूची-I

- |                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| रेडविलफ रेखा    | - भारत और पाकिस्तान          |
| मैगीनॉट रेखा    | - फ्रांस और जर्मनी           |
| झूरण्ड रेखा     | - अफगानिस्तान और भारत के बीच |
| हेंडेनबर्ग रेखा | - बेल्जियम और जर्मनी         |

- \* वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है, वह है —उत्तरी अमेरिका
- \* स्थल बाधित देश हैं —अफगानिस्तान, हंगरी एवं स्विट्जरलैंड
- \* दक्षिण सूडान के लिए सही कथन हैं  
—यह एक स्थलावृत्त देश है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है।
- \* अंतर्महाद्वीपीय देश हैं —जॉर्जिया, टर्की
- \* अज़रबैजान नहीं है —भू-आबद्ध देश

# देशों के पुराने नाम

- \* सही सुमेलन है-

| सूची-I       | सूची-II   |
|--------------|-----------|
| (पुराना नाम) | (नया नाम) |
| स्याम        | थाइलैण्ड  |
| फारमोसा      | ताइवान    |
| मेसोपोटामिया | इराक      |
| बर्मा        | म्यांगार  |

- \* सही सुमेलन है-

| (वर्तमान नाम) | (पुराना नाम)  |
|---------------|---------------|
| हरारे         | सेलिसबरी      |
| इथिओपिया      | एबीसीनिया     |
| घाना          | गोल्ड कोस्ट   |
| किंसासा       | लियोपोल्डविले |

- \* जिम्बोब्वे पहले जाना जाता था —दक्षिणी रोडशिया के नाम से

# अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं

- \* वह नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है —रियोग्रांडे, राइन
- \* रियोग्रांडे नदी सीमा बनाती है —मेकिसको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य
- \* वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है —विक्टोरिया
- \* नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए—



- मानचित्र में बिंदुओं से बनी (टूटी) रेखा है —झूरंड लाइन
- \* मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है —भारत एवं चीन के मध्य
- \* रैडविलफ लाइन सीमा निर्धारित करती है —भारत एवं पाकिस्तान के बीच
- \* 38वीं समानांतर सीमा रेखा विभाजित करती है —उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को
- \* मैगीनॉट रेखा थी —फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा
- \* अल्पाइन लाइन विभाजित करती है —फ्रांस एवं इटली को

# देशों की राजधानियाँ

- \* सही सुमेलन है-
 

| (देश)        | (राजधानी)   |
|--------------|-------------|
| स्लोवेनिया   | ल्युब्लिजना |
| सेशेल्स      | विक्टोरिया  |
| सिएरा लियोन  | फ्रीटाऊन    |
| उज्बेकिस्तान | ताशकंद      |
- \* वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है —ब्रिसबेन (ऑस्ट्रेलिया)

\* म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है-

\* सही सुमेलन है-

-नाय प्यी ता (Nay Pyi Taw)

\* सही सुमेलन है-

|       |           |
|-------|-----------|
| (देश) | (राजधानी) |
|-------|-----------|

|        |          |
|--------|----------|
| बहामास | - नस्साऊ |
|--------|----------|

|            |           |
|------------|-----------|
| कोस्टारिका | - सान जोस |
|------------|-----------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| निकारागुआ | - मानागुआ |
|-----------|-----------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| डोमिनिकन रिपब्लिक | - सांटो डोमिंगो |
|-------------------|-----------------|

|         |          |
|---------|----------|
| युगांडा | - कंपाला |
|---------|----------|

|              |          |
|--------------|----------|
| उज्जेकिस्तान | - ताशकंद |
|--------------|----------|

|         |       |
|---------|-------|
| यूक्रेन | - कीव |
|---------|-------|

\* पेरु की राजधानी है

\* विएना देश की राजधानी है

\* झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है

\* सही सुमेलन है-

|           |       |
|-----------|-------|
| (राजधानी) | (देश) |
|-----------|-------|

|        |          |
|--------|----------|
| अम्मान | - जॉर्डन |
|--------|----------|

|         |               |
|---------|---------------|
| बिश्केक | - किर्गिस्तान |
|---------|---------------|

|          |            |
|----------|------------|
| उलन बटोर | - मंगोलिया |
|----------|------------|

|        |       |
|--------|-------|
| सनाइया | - यमन |
|--------|-------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| दुशानबे | - ताजिर्किस्तान |
|---------|-----------------|

\* सही सुमेलन है-

|        |         |
|--------|---------|
| सूची-I | सूची-II |
|--------|---------|

|       |           |
|-------|-----------|
| (देश) | (राजधानी) |
|-------|-----------|

|          |        |
|----------|--------|
| बुलारिया | सोफिया |
|----------|--------|

|          |          |
|----------|----------|
| जॉर्जिया | तिब्लिसी |
|----------|----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| आइसलैंड | रिक्याविक |
|---------|-----------|

\* सही सुमेलन है-

|       |           |
|-------|-----------|
| (देश) | (राजधानी) |
|-------|-----------|

|         |            |
|---------|------------|
| साइप्रस | - निकोसिया |
|---------|------------|

|        |         |
|--------|---------|
| लेबनान | - बेरूत |
|--------|---------|

|       |          |
|-------|----------|
| टर्की | - अंकारा |
|-------|----------|

\* सही सुमेलन है-

|       |           |
|-------|-----------|
| (देश) | (राजधानी) |
|-------|-----------|

|     |          |
|-----|----------|
| चीन | - बीजिंग |
|-----|----------|

|       |         |
|-------|---------|
| कनाडा | - ओटावा |
|-------|---------|

|             |          |
|-------------|----------|
| ऑस्ट्रेलिया | - कैनबरा |
|-------------|----------|

|     |          |
|-----|----------|
| रूस | - मॉस्को |
|-----|----------|

सूची-I

(देश)

|         |
|---------|
| बुरुंडी |
|---------|

|           |
|-----------|
| कजाखस्तान |
|-----------|

|      |
|------|
| लाओस |
|------|

|      |
|------|
| माली |
|------|

\* सही सुमेलन है-

(देश)

|          |
|----------|
| फिल्लैंड |
|----------|

|          |
|----------|
| बोलिविया |
|----------|

|          |
|----------|
| इथिओपिया |
|----------|

सूची-I

(देश)

|          |
|----------|
| अजरबैजान |
|----------|

|          |
|----------|
| गैम्बिया |
|----------|

|         |
|---------|
| लाटविया |
|---------|

\* सही सुमेलन है-

सूची-I

(देश)

|         |
|---------|
| ब्राजील |
|---------|

|        |
|--------|
| क्यूबा |
|--------|

|            |
|------------|
| कोस्टारिका |
|------------|

|      |
|------|
| पेरु |
|------|

|            |
|------------|
| आइरी कोस्ट |
|------------|

\* सही सुमेलन है-

(देश)

|      |
|------|
| फिजी |
|------|

|          |
|----------|
| फिल्लैंड |
|----------|

|        |
|--------|
| गुयाना |
|--------|

|        |
|--------|
| लेबनान |
|--------|

\* सही सुमेलन है-

(देश)

|          |
|----------|
| श्रीलंका |
|----------|

|        |
|--------|
| मालदीव |
|--------|

|            |
|------------|
| जिम्बोब्वे |
|------------|

|        |
|--------|
| मॉरीशस |
|--------|

सूची-II

(राजधानी)

|            |
|------------|
| बुजुम्बुरा |
|------------|

|         |
|---------|
| अस्ताना |
|---------|

|             |
|-------------|
| वियन्नियाने |
|-------------|

|       |
|-------|
| बमाको |
|-------|

(राजधानी)

|          |
|----------|
| हेलसिंकी |
|----------|

|        |
|--------|
| ला पाज |
|--------|

|            |
|------------|
| आदिस अबाबा |
|------------|

सूची-II

(राजधानी)

|      |
|------|
| बाकू |
|------|

|        |
|--------|
| बांजुल |
|--------|

|      |
|------|
| रिगा |
|------|

सूची-II

(राजधानी)

|            |
|------------|
| ब्राजीलिया |
|------------|

|       |
|-------|
| हवाना |
|-------|

|         |
|---------|
| सेन जोस |
|---------|

|      |
|------|
| लीमा |
|------|

|          |
|----------|
| यामूसिको |
|----------|

(राजधानी)

|      |
|------|
| सुवा |
|------|

|          |
|----------|
| हेलसिंकी |
|----------|

|           |
|-----------|
| जॉर्जटाउन |
|-----------|

|       |
|-------|
| बेरूत |
|-------|

(राजधानी)

|         |
|---------|
| कोलम्बो |
|---------|

|      |
|------|
| माले |
|------|

|       |
|-------|
| हरारे |
|-------|

|            |
|------------|
| पोर्ट लुइस |
|------------|

\* सही सुमेलन है-

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| सूची-I<br>(देश) | सूची-II<br>(राजधानी) |
| ताजिकिस्तान     | दुशांबे              |
| तंजानिया        | डोडोमा               |
| स्विट्जरलैंड    | बर्न                 |

\* सही सुमेलन है-

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| सूची-I<br>(देश) | सूची-II<br>(राजधानी) |
| पैलेस्टाइन      | रामलल्ला             |
| कोसोवो          | प्रिस्टिना           |
| टर्किस साइप्रस  | निकोशिया             |
| ताइवान          | ताइपे                |

\* सही सुमेलन है-

|            |            |
|------------|------------|
| (देश)      | (राजधानी)  |
| वेनेजुएला  | - कारकस    |
| च्यूजीलैंड | - वेलिंगटन |
| कोलम्बिया  | - बगोटा    |
| साइप्रस    | - निकोसिया |

\* सही सुमेलन है-

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| सूची-I<br>(राजधानी) | सूची-II<br>(देश) |
| विड्हाक             | नामीबिया         |
| अक्रा               | घाना             |
| नैरोबी              | केन्या           |
| लुसाका              | जाम्बिया         |
| अबुजा               | नाइजीरिया        |

\* सही सुमेलन है-

|           |            |
|-----------|------------|
| (राजधानी) | (देश)      |
| कोपेनहेन  | - डेनमार्क |
| बर्लिन    | - जर्मनी   |
| पेरिस     | - फ्रांस   |
| ओस्लो     | - नॉर्वे   |

\* सही सुमेलन है-

|           |              |
|-----------|--------------|
| (राजधानी) | (देश)        |
| बुडापेस्ट | - हंगरी      |
| किंशासा   | - जैरे       |
| वोलिंगटन  | - च्यूजीलैंड |

## विश्व के नगर

- \* कथन (A) : संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है।  
 कारण (R) : वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वारा हैं।  
 -(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा  
 (R), (A) की सही व्याख्या है।

\* सही सुमेलन है-


|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| सूची-I<br>(झील) | सूची-II<br>(नगर) |
| इरी             | डेट्रायट         |
| मिशिगन          | गैरी             |
| ओंटारियो        | हैमिल्टन         |
| सुपीरियर        | डुलुथ            |

- \* मानचित्र मध्य एशिया क्षेत्र के 1, 2, 3 एवं 4 से अंकित चार नगरों को दर्शाता है।



1. अश्खाबाद
2. ताशकंद
3. बिश्केक
4. दुशांबे

- \* दिए गए मानचित्र A, B, C और D से अंकित नगरों को नगरों के नामों से सुमेलित-



- A. डारविन
- B. कुआलालम्पुर
- C. नैरोबी
- D. लागोस

- \* अलास्का का हिस्सा है

- \* कैलिफोर्निया (यू.एस.ए.) के कैम्पबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता कलारा में से 'सिलिकॉन घाटी' के अंतर्गत अवस्थित नहीं हैं—

सांता रोसा

- \* दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है

—केपटाउन में

- \* उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है

—पेशावर—इस्लामाबाद—गुजरांवाला—मुत्तान

- \* कन्धार स्थित है
  - \* यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर है-
    - लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरुत
  - \* दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है
    - ल्हासा
  - \* सही सुमेलन है
- | सूची-I<br>(स्थान) | सूची-II<br>(देश) |
|-------------------|------------------|
| अरोविले           | - भारत           |
| बैकानूर           | - कजाखस्तान      |
| बाण्डुग           | - इंडोनेशिया     |
| बट्टीकलोआ         | - श्रीलंका       |
- \* सही सुमेलन है
- | सूची-I        | सूची-II                    |
|---------------|----------------------------|
| तस्मानिया     | - ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत |
| सिसली         | - इटली का स्वायत्त प्रदेश  |
| च्यूफाउंडलैंड | - कनाडा के पूर्वी भाग में  |
| डरबन          | - दक्षिण अफ्रीका           |
| निकोसिया      | - साइप्रस                  |
- \* वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है - आइसलैंड
  - \* सन सिटी अवस्थित है
  - \* सही सुमेलन है
- | सूची-I<br>(देश) | सूची-II<br>(सबसे बड़ा नगर) |
|-----------------|----------------------------|
| कनाडा           | - टोरंटो                   |
| ग्रीस           | - एथेंस                    |
| नाइजीरिया       | - लागोस                    |
| सीरिया          | - इमस्कस                   |
- \* सही सुमेलन है
- | नगर/शहर    | देश            |
|------------|----------------|
| दावोस      | - स्विट्जरलैंड |
| बार्सिलोना | - स्पेन        |
| ऑकलैंड     | - न्यूजीलैंड   |
| कैंडी      | - श्रीलंका     |
- \* कांटो मैदान जिस देश में है, वह है
    - जापान
  - \* मेकिस्को देश स्थित है
    - उत्तर अमेरिका महाद्वीप में
  - \* कांगो स्थित है
    - अफ्रीका में
  - \* माल्टा अवस्थित है
    - भूमध्य सागर में

|                  |                |
|------------------|----------------|
| * सही सुमेलन है- |                |
| नगर              | अक्षांश स्थिति |
| जकार्ता          | - 6°12' S      |
| सिंगापुर         | - 1.3° N       |
| बैंकॉक           | - 13°45' N     |
| हनोई             | - 21°2' N      |

## भौगोलिक उपनाम

- \* मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है
    - उत्तरी ध्रुव पर
  - \* 'पक्षियों का महाद्वीप' के नाम से जाना जाता है - दक्षिणी अमेरिका
  - \* सही सुमेलन है-
- | सूची-I                                    | सूची-II           |
|-------------------------------------------|-------------------|
| नियांग्रा प्रपात                          | - न्यूयॉर्क राज्य |
| हजारों झीलों की भूमि                      | - फिनलैंड         |
| एफिल टॉवर                                 | - पेरिस           |
| विश की छत                                 | - पामीर           |
| अंध महाद्वीप                              | - अफ्रीका         |
| मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती | - बहरीन           |
- \* 'धूम्रनगर' के नाम से जाना जाता है
    - शिकागो
  - \* 'पूर्वी समुद्र की स्वामिनी' कहा जाता है
    - श्रीलंका को
  - \* दक्षिण अमेरिका का वह नगर है, जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण 'अमेरिका का पेरिस' कहलाता है
    - ब्यूनस आयर्स
  - \* संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है
    - केनटुकी
  - \* टर्की का वह नगर, जो 'पश्चिम का द्वार' कहलाता है
    - इस्तांबुल
  - \* वह देश जिसको 'श्वेत हाथी की भूमि' कहा जाता है
    - थाईलैंड
  - \* सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है
    - जापान
  - \* 'झीलों की वाटिका' कहा जाता है
    - फिनलैंड को
  - \* शहरों का शहर कहलाता है
    - वेनिस
  - \* 'स्वर्ण द्वार का नगर' कहा जाता है
    - सैनफ्रांसिस्को को
  - \* 'पूर्व का मैनचेस्टर' कहा जाता है
    - ओसाका (जापान)
  - \* 'पर्ल ऑफ साइबेरिया' कहा जाता है
    - बैकाल झील को
  - \* 'प्रातःकालीन शांत स्थल' कहा जाता है
    - कोरिया को

## जलमण्डल

- \* समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है  
—उत्तरी ध्रुव
- \* डेटम रेखा है  
—समुद्र तल की क्षेत्रिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है।
- \* हमारे जलमण्डल का सबसे बड़ा भाग है  
—प्रशान्त महासागर
- \* उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्वोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिन्द महासागरीय द्वोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशान्त महासागरीय द्वोणी में प्रवेश करने वाला कटक है  
—मध्य महासागरीय कटक
- \* 'नाईटी ईस्ट रिज' स्थित है  
—हिन्द महासागर में
- \* भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है  
—1/3 एटमॉसफियर से कम तनाव पर
- \* सत्य कथन है—  
—पृथ्वी ग्रह पर, उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल (भीठा पानी) कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है।
- \* हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है  
—महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों (स्थायी हिम) में
- \* पृथ्वी ग्रह पर, अधिकांश अलवण-जल, बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण-जल का सबसे अधिक भाग  
—भूमिगत जल के रूप में है
- \* महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है  
—गहरे सागरीय मैदान

## विश्व के प्रमुख समुद्र

- \* टर्की स्थित है  
—काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य
- \* सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है  
—भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर
- \* आंतरिक सागर है  
—कैस्पियन सागर
- \* जिस महासागर से 'सारगैसो' संबंधित है, वह है  
—उत्तरी अटलांटिक
- \* सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है  
—विशिष्ट समुद्री वनस्पति
- \* इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोरसिका से धिरे सागर का नाम है  
—टेरहेनियन सागर
- \* अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं  
—कज़ाखस्तान एवं उज्जेकिस्तान को
- \* वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है  
—चाड

## महासागरीय धाराएं

- \* महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं  
—पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व
- \* महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन हैं  
—महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भू-पृष्ठ संचलन होती हैं, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, महासागरीय वाताएं मुख्यतः सनातन पर्वतों द्वारा चतायमान होती हैं, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं।
- \* हिन्द महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है  
—हिन्द महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना।
- \* अगुलहास धारा चलती है  
—हिन्द महासागर में
- \* उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है  
—नॉर्वे
- \* दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है  
—बैंगुला धारा
- \* दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है  
—कनारी धारा
- \* सही सुमेलन हैं—
 

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>सूची-I</b> | <b>सूची-II</b>                  |
| ब्राजील धारा  | - दक्षिण अटलांटिक महासागर       |
| हम्बोल्ट धारा | - दक्षिण पूर्व प्रशान्त महासागर |
| गल्फ स्ट्रीम  | - उत्तरी अटलांटिक महासागर       |
| अगुलहास धारा  | - हिन्द महासागर                 |
- \* गल्फ स्ट्रीम है  
—एक गर्म महासागरीय धारा
- \* दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का युग्म है—
 



—बैंगुला और गिनी

\* सही सुमेलन है-

### सूची-I

- पश्चिमी गायु प्रवाह
- गल्फ स्ट्रीम
- पेरु धारा
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा
- \* विषुवतीय प्रतिधाराओं (इवकेटोरिशियल काउंटर-करेंट) के पूर्वभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है

### सूची-II

- पश्चिमी गायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा
- गर्म धारा
- प्रशान्त महासागर
- हिन्द महासागर
- पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से

## लवणता

- \* महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है—हेलोकलाइन
- \* सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है —भूमि
- \* सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है —सोडियम क्लोराइड का
- \* उच्चतम लवणता पाई जाती है —वान झील (टर्की में)
- \* समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में —लवणता बढ़ती है, किंतु गहराई कम होती है।
- \* ग्रेट-साल्ट झील स्थित है —यू.एस.ए. (संयुक्त राज्य अमेरिका) में
- \* अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है —36 ppt

## ज्वार/भाटा

- \* महासागर में ज्वार-भाटा की उत्पत्ति के कारण हैं —गुरुत्वाकर्षण, अभिकेन्द्रीय बल तथा अपकेन्द्रीय बल
- \* अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार (Indirect High Tide) उत्पन्न होने का कारण है —पृथ्वी का अपकेन्द्रीय बल
- \* **कथन (A) :** लघु ज्वार-भाटाओं के समय, उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है।
- कारण (R) :** लघु ज्वार-भाटा, वृहद ज्वार-भाटा के विपरीत, पूर्णचंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है।
- (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- \* वृहत ज्वार आता है —जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं।
- \* महासागर में ऊंची जलतरंगें होती हैं —चंद्रमा के कारण

## महासागरीय गर्त

\* सही सुमेलन है

### सूची-I

#### (महासागरीय गर्त)

एल्युशियन (Aleutian)

करमेडेक (Kermadec)

सुन्डा (Sunda)

एस. सेंडविच (S. Sandwich)

\* विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है

\* डायमेंटिना गर्त (परिखा) स्थित है

### सूची-II

#### (स्थान)

उत्तर प्रशान्त महासागर

दक्षिण प्रशान्त महासागर

हिन्द महासागर

दक्षिण अन्ध महासागर

—चैलेंजर (मैरियाना)

—हिन्द महासागर में

## विश्व की नदियां

\* अपवाह क्षेत्र (Drainage Area) की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है —अमेजन

\* वह नदी जो विषुवत रेखा को दो बार पार करती है —जायरे

\* दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है —अमेजन

\* वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं—रवांडा, बुरुंडी डी आर कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, एवं मिस्र

\* नीली नील (ब्लू नाइल) नदी निकलती है —ताना झील से


\* **कथन (A) :** मिस्र नील नदी का उपहार है।

**कारण (R) :** वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है।

—(A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा

(R), (A) की सही व्याख्या है।

\* नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए—



मानचित्र में दर्शाई गई नदी है

—सालवीन


\* एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है

—सालवीन

\* एशिया की सबसे लंबी नदी है


—यांगटीसी

- \* A, B, C और D के रूप में चिह्नांकित अपवाह द्रोणियों का नाम है-



-A. पराना नदी, B. गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी,  
C. जाम्बेजी नदी, D. सिन्धु नदी

- \* दिए गए मानचित्र में अंकित A, B, C और D नदियों के नाम हैं-



-A. यूकॉन नदी, B. मैकेंजी नदी,  
C. सेंट लॉरेंस नदी, D. ओरिनोको नदी

- \* सर और आमू नदियां गिरती हैं —अरल सागर में

- \* काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय हैं —नीपर-डेन्यूब

- \* बोल्वा नदी गिरती है —कैस्पियन सागर

- \* सही सुमेलन है

**सूची-I**

(नदियां)

लीना (रूस)

आमूर (रूस, चीन)

टिप्परिस (तुर्की, सीरिया, इराक)

माही (म.प्र., राज., गुजरात)

- \* वह नदी जो ब्रेश घाटी से बहती है —राइन

- \* अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को दो बार काटती है —लिम्पोपो

- \* वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है —श्रीलंका

- \* महावेली गंगा एक नदी है —श्रीलंका की

- \* सही सुमेलन है-

**सूची-II**

(देश)

यूकॉन

इटली

जर्मनी

स्विटजरलैंड

- \* हिमानी झील इटास्का स्रोत है —मिसीसीपी नदी का

## नदियों के किनारे स्थित नगर

- \* सही सुमेलन है-

(नगर)

खारतूम

न्यूयॉर्क

बर्लिन

पेरिस

वाशिंगटन डी.सी.

मैट्रिड

(नदी)

नील नदी

हडसन नदी

स्प्री नदी

सीन नदी

पोटोमेक नदी

मैंजेनरेस नदी

- \* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(नगर)

लाहौर (पाकिस्तान)

रोम (इटली)

लंदन (ब्रिटेन)

विएना (ऑस्ट्रिया)

काहिरा (मिस्र)

विएना (ऑस्ट्रिया)

**सूची-II**

(नदी)

रावी नदी

टाइबर नदी

टेम्स नदी

डेन्यूब नदी

नील नदी

डेन्यूब नदी

- \* सही गुम्फ है-

(नगर)

पर्थ (ऑस्ट्रेलिया)

बुडापेस्ट (हंगरी)

हैम्बर्ग

बेलग्रेड

कीव

(नदी)

स्वान नदी (Swan River)

डेन्यूब नदी (Danube River)

एल्व

डेन्यूब

नीपर

- \* वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है —शंघाई

- \* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(नगर)

बैकॉक

नाम पेन्ह

हनोई

यांगून

**सूची-II**

(नदी)

मेनाम (चाओफ्राया)

मेकांग

लाल नदी (रेड रिवर)

इरावदी

- \* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(नदी)

पोटोमेक

नील

टिप्परिस

टेम्स

**सूची-II**

(देश)

यू.एस.ए.

सूडान

इराक

इंग्लैंड

\* सही सुमेलन है-

|          |            |
|----------|------------|
| (नगर)    | (नदी)      |
| बेलग्रेड | — डेन्यूब  |
| रोम      | — टाइबर    |
| वारसॉ    | — विश्चुला |
| वाशिंगटन | — पोटोमेक  |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I   | सूची-II |
|----------|---------|
| (नगर)    | (नदी)   |
| एंटवर्प  | — सेल्ट |
| रॉटरडैम  | — राइन  |
| हैम्बर्ग | — इल्वे |

## नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप

\* डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है, जहां नहीं होते हैं

—गहरा समुद्र

\* विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है

—गंगा-ब्रह्मपुत्र द्वारा

\* ग्रांड कैनियन है

—एक खड्ग (Gorge)

\* चिसापानी गॉर्ज स्थित है

—नेपाल में

## द्वीप

\* वह द्वीपसमूह जिसको 'शीप द्वीप' कहा जाता है

—फरो द्वीप

\* संसार का सबसे बड़ा द्वीप है

—ग्रीनलैंड

\* दुनिया में सबसे बड़ा (ग्रीनलैंड के बाद) द्वीप है

—न्यू गिनी

\* कथन सही है

—नूक (डेनमार्क की राजधानी) की

समुद्रतल से ऊंचाई 1-3 मीटर तक है।

\* पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो तीन देशों में विभाजित है

—बोर्नियो

\* कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है, वह है

—बोर्नियो

\* मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है

—हिन्द महासागर में

\* नीचे दिए गए मानचित्र में हिन्द महासागर क्षेत्र के चार द्वीप अर्थात् A सेशेल्स, B चागोस, C मॉरीशस और D सोकोवा को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इनका इस प्रकार से सुमेलन है-



—(1) चागोस (2) सोकोवा (3) सेशेल्स (4) मॉरीशस

- \* चागोस, मालद्वीप, मॉरीशस एवं सोकोवा द्वीपों में से दक्षिणी हिन्द महासागर में स्थित है —मॉरीशस द्वीप
- \* मेलनेसिया द्वीपसमूह में सम्मिलित हैं —न्यू गिनी, बिस्मार्क आर्कियोपेतागो, सांताकूज, वनुआतु, सोलोमन, फिजी एवं न्यूकैलेडोनिया —हिन्द महासागर में
- \* डियागो गार्सिया स्थित है
- \* नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए—



\* डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है, जहां नहीं होते हैं

—गहरा समुद्र

\* विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है

—गंगा-ब्रह्मपुत्र द्वारा

\* ग्रांड कैनियन है

—एक खड्ग (Gorge)

\* चिसापानी गॉर्ज स्थित है

—नेपाल में

1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थान क्रमशः द्वीपों के द्योतक हैं

—एजोर, वर्ड अंतरीप, बहामा और फॉकलैंड

\* सही कथन है

—फॉकलैंड द्वीपसमूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है।

\* फिजी द्वीप अवस्थित है

—प्रशान्त महासागर में

\* जापान का विशालतम द्वीप है

—होन्शू

\* मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था

—वर्ष 1999 में

\* बालिआरिक द्वीपसमूह स्थित है

—भूमध्य सागर में

\* वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा 'नदी द्वीप' है

—ब्रह्मपुत्र

\* द्वीपीय महाद्वीप है

—ऑस्ट्रेलिया

\* ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है

—कैरीबियन सागर में

## झीलें एवं जल प्रपात

\* विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है

—टांगानिका झील

\* बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन तथा मिशिगन झीलों में से एक 'ग्रेट लेक्स'

—बियर झील

\* संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है

—ऑटेरियो-ईरी-ह्यूरान - मिशिगन-सुपीरियर

\* वह झील जो पूर्णतः यू.एस.ए. में स्थित है

—मिशिगन झील

\* झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है-

—सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर

\* विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है

—लेक सुपीरियर

|                                                          |                                     |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है                | —बैकाल झील                          | ★ वह जलसंयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है                                                  |
| ★ क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है | —कैस्पियन सागर                      | —जिब्राल्टर                                                                                        |
| ★ प्रसिद्ध 'अंगुलियोंनुमा (फिंगर) झील क्षेत्र' स्थित है  | —संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) में | ★ हारमुज जलसंधि पाई जाती है                                                                        |
| ★ 'झीलों की वाटिका' कहते हैं                             | —फिनलैंड                            | —फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच                                                            |
| ★ 'एक हजार झीलों का देश' कहा जाता है                     | —फिनलैंड को                         | ★ एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को, जो जलडमरुमध्य अलग करता है,                                          |
| ★ सही सुमेलन है-                                         | (झील)                               | वह है                                                                                              |
| बॉयलिंग झील                                              | (देश)                               | —बेरिंग जलडमरुमध्य                                                                                 |
| फाइव फ्लॉवर झील                                          | - डोमिनिका                          | ★ आर्कटिक महासागर एवं प्रशान्त महासागर को जोड़ने वाला                                              |
| रेड लैगून                                                | - सियुआन (चीन)                      | जलडमरुमध्य है                                                                                      |
| ग्रेट स्लेव झील                                          | - बोलिविया                          | —बेरिंग                                                                                            |
| ★ वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है                     | —डुलुथ                              | ★ सही सुमेलन है                                                                                    |
| ★ सही सुमेलित है-                                        |                                     | <b>सूची-I</b>                                                                                      |
| झीलें                                                    | देश                                 | <b>सूची-II</b>                                                                                     |
| टिटिकाका झील                                             | - बोलिविया-पेरू                     | जिब्राल्टर जल संधि - अफ्रीका व यूरोप के मध्य                                                       |
| उर्मिया झील                                              | - ईरान                              | मलक्का जल संधि - इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य                                                      |
| रेंडीयर झील                                              | - कनाडा                             | बेरिंग जल संधि - एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य                                                    |
| अथाबास्का झील                                            | - कनाडा                             | हॉरमुज जल संधि - फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य                                             |
| ★ संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है                         | —साल्टो एंजिल                       | ★ दस डिग्री चैनल पृथक करता है — अंडमान को निकोवार द्वीपों से                                       |
| ★ एंजिल प्रपात अवस्थित है                                | —वेनेजुएला में                      | ★ वह जलडमरुमध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है — डोवर जलडमरुमध्य |
| ★ विक्टोरिया जल प्रपात जिस नदी से संबद्ध है वह है        | —जाम्बेजी                           | ★ डोवर जलसंधि जोड़ती है — इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को                                          |
| ★ क्रोएशिया की प्लिटविस झील है                           | —विश्व धरोहर स्थल                   | ★ पाक खाड़ी है                                                                                     |
| ★ सही सुमेलन है-                                         |                                     | —मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच                                                          |
| <b>सूची-I</b>                                            | <b>सूची-II</b>                      | ★ फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है — ओमान से                                                       |
| विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात                             | - एंजिल जल प्रपात                   | ★ सही सुमेलन है                                                                                    |
| विश्व की सबसे बड़ी                                       | - सुपीरियर झील                      | <b>खाड़ी</b> <b>स्थिति</b>                                                                         |
| ताजे जल की झील                                           |                                     | बोथनिया की खाड़ी — स्वीडन, फिनलैंड                                                                 |
| विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील                           | - टिटिकाका झील                      | बैफिन की खाड़ी — कनाडा, ग्रीनलैंड                                                                  |
| विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील                             | - टांगानिका झील                     | कारपेन्टरिया की खाड़ी — ऑस्ट्रेलिया                                                                |
|                                                          |                                     | टॉन्किन की खाड़ी — वियतनाम, चीन                                                                    |
|                                                          |                                     | ★ हिन्द महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जलसंधि है — बाब-अल-मनदेब                                |

## नहरें

|                                                                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ★ मलक्का जलसंयोजक में आने-जाने की सुविधाएं हैं                                                | ★ स्वेज नहर (Suez Canal) जोड़ती है                                        |
| —हिन्द महासागर से चीन सागर तक                                                                 | —लाल सागर और भूमध्य सागर को                                               |
| ★ भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौसंचालन समय (नेविगेशन टाइम) और दूसी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं | ★ स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन-युग्म है                        |
| —सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भू-संधि/जलडमरुमध्य के पार नई नहर खोल कर।                | —पोर्ट सर्विद तथा स्वेज                                                   |
|                                                                                               | ★ कथन (A) : स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। |
|                                                                                               | कारण (R) : स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है।                |
|                                                                                               | —(A), (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की व्याख्या करता है।                  |

- \* संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है —स्वेज नहर
- \* मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा —स्वेज नहर से होकर
- \* पनामा नहर जोड़ती है —प्रशान्त महासागर एवं अन्ध महासागर को
- \* 'सू' नहर जोड़ती है, —सुपीरियर और हूरोन को
- \* वह देश जो प्रशान्त महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है —निकारागुआ
- \* कील नहर जोड़ती है —उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को

## विश्व के प्रमुख बांध

- \* पराना नदी पर निर्मित इतेपु बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है —ब्राजील और पराग्वे की
- \* विश्व का सबसे लंबा समुद्र-सेतु बनाया गया है —गुआंगडोंग प्रांत के झुहाई में
- \* सही सुमेलन है

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>सूची-I</b> | <b>सूची-II</b> |
| (नदी)         | (बांध)         |
| कोलोरेडो      | — हूवर         |
| दामोदर        | — पंचेत हिल    |
| नील           | — अस्वान       |
| जाम्बेजी      | — करीबा        |

- \* अस्वान उच्च बांध स्थित है —मिस्र में
- \* चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर, 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है —जांगमऊ
- \* सही सुमेलन है

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>(बांध)</b>        | <b>(नदियां)</b> |
| ग्रेंड कुली          | - कोलम्बिया     |
| नुरेक                | - वरखा          |
| काहोरा (काबोरा) बासा | - जाम्बेजी      |

## प्रवाल भित्ति

- \* कोरल रीफ या जीवाशम पट्टी प्रायः पाई जाती है —कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में
- \* 'ग्रेट बैरियर रीफ' है —ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति
- \* ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है —प्रशान्त महासागर में
- \* प्रवाल द्वारा निर्मित 'ग्रेट बैरियर रीफ' स्थित है, —कर्वीसलैंड तट के समीप

## वायुमण्डल

- \* पृथ्वी के नजदीक वायुमण्डल में मुख्यतः पाई जाती है—नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन
- \* वायुमण्डल में सबसे अधिक प्रतिशत है —नाइट्रोजन गैस का
- \* पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमण्डल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है —क्षेत्रमण्डल, समतापमण्डल, मध्यमण्डल, आयनमण्डल
- \* अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमण्डलीय परत में होती हैं, वह है —क्षेत्रमण्डल
- \* समतापमण्डल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि —इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती।
- \* ओजोन परत अवस्थित है —समतापमण्डल में
- \* सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है —ओजोन परत
- \* समतापमण्डल में ओजोन परत का कार्य है —भूतल पर परावैगनी विकिरण-पात को रोकना।
- \* 'ओजोन परत' अवस्थित है —पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमण्डल में
- \* रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है —आयनमण्डल (आयनोस्फियर)
- \* उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमण्डल की जिम्मेदार परत है —आयनमण्डल
- \* बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है —आयनमण्डल द्वारा
- \* संचार उपग्रह वायुमण्डल में अवस्थित किए जाते हैं —बहिर्मण्डल में
- \* सही सुमेलन है-

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| क्षेत्रमण्डल | - मौसम संबंधी घटनाएं                          |
| समतापमण्डल   | - ओजोन परत                                    |
| आयनमण्डल     | - पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें |

## सूर्यातिप

- \* **कथन (A) :** वायुमण्डल अधिकांश ऊषा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है।
- \* **कारण (R) :** पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी-तरंगों में परिणत होती हैं।
- \* **(A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।**

- \* सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि—

ऊपरी वायुमण्डल में आर्द्रता का अभाव होता है,  
ऊपरी वायुमण्डल में हवा कम घनी होती है।

- \* सबसे अधिक सूर्योत्तरप को परावर्तित करता/करती है  
—नवपात हिम से आच्छादित भूमि
- \* सही कथन है  
दक्षिणी गोलार्द्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्द्ध  
में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है।

- \* पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं—  
—20° उत्तरी अक्षांश पर

- \* साफ रात मेंधीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है  
—विकिरण के कारण

## चक्रवात

- \* कथन (A) : पृथ्वीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है।  
कारण (R) : हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

- \* टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जो उठते हैं  
—कैरेबियन सागर में

- \* संयुक्त राज्य अमेरिका में 'टॉर्नेडो एली' कहा जाता है  
—मिसीसिपी मैदान को

- \* सामान्य रूप से 'टॉर्नेडो' संबद्ध है  
—यू.एस.ए. से

- \* टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है  
—फुजीटा स्केल

- \* टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है  
—चीन सागर

- \* सही सुमेलन है

| सूची-I                | सूची-II   |
|-----------------------|-----------|
| ऑस्ट्रेलिया           | विली-विली |
| चीन                   | टाइफून    |
| भारत                  | चक्रवात   |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | हरिकेन    |
| * विली-विली है        |           |

—उत्तर-पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात

- \* बागियो चक्रवात संबंधित है  
—फिलीपींस से
- \* हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है  
—साफिर- सिम्पसन मापक का
- \* बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है  
—तूफान का
- \* नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है  
—स्थांमार
- \* उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण है  
—समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं।

## आर्द्रता

- \* कथन (A) : वायुमण्डल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है।  
कारण (R) : नमी को जलवाष्य के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है।  
—(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- \* ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्णा (Humid Heat) का अनुभव होता है, जब मौसम —उमस वाला (Muggy) होता है।

## वायुदाब

- \* कथन (A) : दोनों गोलार्द्धों के 60°-65° अक्षांशों में उच्च दाब की बजाए निम्न दाब पट्टिका होती है।  
कारण (R) : निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं, बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं।  
—(A) सही है, परंतु (R) गलत है।
- \* सत्य कथन है—  
—सागरों के ऊपर लगभग 30° से 35° उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है।
- \* वायुदाब सबसे कम होता है  
—ग्रीष्म ऋतु में

## बादल

- \* वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है  
—वर्षा स्तरी
- \* सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं  
—पक्षाभ स्तरी
- \* मेघ गर्जन के कारण हैं  
—संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा।

# हवाएं

- \* **कथन (A) :** उत्तरी गोलार्द्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है।
- कारण (R) :** उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्द्धों में पवन-प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है।  
-(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
- \* **अभिकथन (A) :** हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई की दिशा में (दक्षिणावर्त) एवं उत्तरी गोलार्द्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में (वामावर्त) होते हैं।
- कारण (R) :** उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्द्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं।  
-(A) गलत है, परंतु (R) सही है।
- \* उत्तरी गोलार्द्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्द्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि—  
—उत्तरी गोलार्द्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्द्ध में भू-खंड कम है।
- \* गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा है—  
—दक्षिणी गोलार्द्ध में पश्चिमी पवनें
- \* 'तुफानी चालीसा' (Roaring Forties) के बारे में सत्य कथन है—  
—ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खाराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं।
- \* 'लंबी चालीसा' पवनें प्रवाहित होती हैं—हिन्द महासागर में
- \* वह सशक्त समुद्री हवाएं जो  $40^{\circ}$  से  $60^{\circ}$  दक्षिणांश के मध्य प्रवाहित होती हैं, उन्हें कहा जाता है—रोगिंग फोर्टीज
- \* संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चीनूक हवाओं के कारण—जाड़े का तापमान बढ़ जाता है।
- \* दक्षिणी गोलार्द्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है—पृथ्वी का घूर्णन
- \* उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं—व्यापारिक पवनें
- \* पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्ररूपी अभिलक्षण है—मानसूनी जलवायु का

# स्थानीय हवाएं

- \* सही सुमेलन है—
 

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>सूची-I</b><br>(स्थानीय पवन) | <b>सूची-II</b><br>(क्षेत्र) |
| फॉन                            | आल्प्स पर्वत                |
| सिमूम                          | कुदिस्तान                   |
| सेंटा एना                      | कैलिफोर्निया                |
| जोन्डा                         | अर्जेटीना                   |
- \* 'फॉन' एक स्थानीय पवन है—स्थिट्जरलैंड की
- \* सही सुमेलन है—
 

|          |                   |
|----------|-------------------|
| फॉन      | आल्प्स पर्वत      |
| बोरा     | इटली (उत्तरी भाग) |
| मिस्ट्रल | राइन घाटी         |
| खमसिन    | मिस्र             |
- \* सही सुमेलित है—
 

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| चीनूक        | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| सिरॉको       | सिसिली                |
| ब्लिझॉर्ड    | साइबेरिया             |
| नॉर्वेस्टर्स | भारत                  |
- \* वह देश जहां 'रुधिर वर्षा' होती है—इटली
- वन**
- \* विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वह है—शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन
- \* वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है—भूटान
- \* सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं—ब्राजील में
- \* भूमध्य रेखा के निकट पाये जाने वाले वन हैं—उष्णकटिबंधीय वन
- \* पृथ्वी पर घने (Dense) वन अधिकतर मिलते हैं—विषुवत रेखा के पास
- \* विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं—कांगो घाटी में
- \* टैगा वन विशिष्टता है—समशीतोष्ण क्षेत्र की
- \* विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं—अमेजन बेसिन में
- \* सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश है—जापान
- \* कोणधारी वन पाए जाते हैं— $56^{\circ}$ – $60^{\circ}$  उत्तरी अक्षांशों में
- \* शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं—शीतोष्ण क्षेत्र में
- \* अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णार्द्ध वन हैं—आइवरी कोस्ट

\* कथन (A) : शीतोष्ण वर्षों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वर्षों का निर्वृक्षन किया जाए, तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं, जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण-पोषण कर सकते हैं।

कारण (R) : शीतोष्ण वर्षों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वर्षों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है।

—(A) गलत है, परंतु (R) सही है।

\* यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए, तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि—

—वर्षा-वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है।

\* सही सुमेलन है-

### सूची-I

(इमारती लकड़ी)

देवदार

डगलसफर

महोगनी

सागौन

### सूची-II

(देश)

— कनाडा

— मेकिसको

— हॉंडुरास

— म्यांमार

\* सही सुमेलन है-

### सूची-I

मानसूनी वन

विषुवत रेखीय वन

भूमध्य सागरीय वन

कोणधारी वन

### सूची-II

सागौन तथा साखू

महोगनी एवं रोजवुड

आलबुखारा (प्लम) एवं जैतून

चीड़ तथा फर

\* विश्व का वह देश, जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है —अमेरिका

\* वह देश, जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है —भारत

\* डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है —शीशम

## विश्व जलवायु

\* अलग-अलग ऋतुओं में दिन-समय और रात्रि-समय के विस्तार में विभिन्नता का कारण है —पृथ्वी का, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण/पृथ्वी का नन्त अक्ष पर परिक्रमण।

\* महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप-परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है

—भूमि और जल के बीच तापीय अंतर

\* मुख्य कारक, जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है, वह है —अक्षांश

\* पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है —शुष्क प्रदेश

\* कथन (A) : भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5° से 8° अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्षा भर वर्षा होती है।

कारण (R) : उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है।

—(A) और (R) दोनों सही हैं और

(R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

\* सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं —एशिया महाद्वीप में

\* वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं

1. कोणा और शुष्क जलवायु

2. सुहावना और आर्द्र शीतकाल

3. सदाबहार ओक वृक्ष

वह क्षेत्र है

—भूमध्य सागरीय क्षेत्र

\* उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है

—निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु

\* कथन (A) : विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है, पर मनुष्यों के लिए नहीं।

कारण (R) : विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है।

—(A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु

(R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

\* अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है —न्यूयॉर्क

\* “जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे।” यह सबसे अच्छा वर्णन है —मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का

\* वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है —नॉर्वे

\* आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है —इटली की

\* सही सुमेलन है-

### सूची-I

(प्रदेश/क्षेत्र)

कैलिफोर्निया (सं.रा. अमेरिका)

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

बांगलादेश

साइबेरिया (रूस)

कांगो

सूडान

### सूची-II

(जलवायु-प्रकार)

भूमध्य सागरीय

उष्ण मरुभूमि

उष्णकटिबंधीय मानसूनी

शीत शीतोष्ण

विषुवतीय

सवाना

\* कथन (A) : भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है।

कारण (R) : जाड़े में यहां पछुआ हवाएं चलती हैं।

—(A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा

(R), (A) की सही व्याख्या है।

- \* भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है –**शीत (जाड़े) ऋतु** में
- \* **कथन (A):** उत्तर-पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्षा भर खुले रहते हैं।  
**कारण (R):** दक्षिण-पश्चिमी हवाएं वर्षा भर उत्तर-पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं।  
–(A) और (R) दोनों सत्य हैं, परंतु (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- \* दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु हैं  
–भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु
- \* जायरे से नीदरलैंड्स जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है  
–भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु,  
भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु
- \* संसार का आर्द्रतम स्थान है –**मासिनराम**
- \* विश्व का सबसे ठंडा स्थान है –**चर्खोयांस्क**
- \* सही सुमेलन है-  
अत्यधिक गर्म – सहारा मरुस्थल  
अत्यधिक ठंडा – अंटार्कटिका  
अत्यधिक वर्षा – मासिनराम  
अत्यधिक सूखा – चिली
- \* एल-निनो बनता है –**प्रशान्त महासागर में**
- \* हेकीस्टोर्थर्म पौधे हैं, जो उगते हैं –**बहुत कम ताप पर**

## मृदा

- \* केशिका (कैपिलरी) सबसे अधिक प्रभावशाली होती है –**चिकनी मिट्टी में**
- \* मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें –**मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है।**
- \* टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भू-भाग में होता है, जिसमें –**चूना पत्थर होता है।**
- \* मृदा विकास बड़ी समस्या है –**उच्चाकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में**
- \* हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं –**क्षारीय मिट्टी में**
- \* मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है –**जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा।**
- \* भू-संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है –**पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में**
- \* सही सुमेलन है-  
**सूची-I**  
(मिट्टी)  
पॉडजॉल  
चर्नोजेम
- सूची-II**  
(जलवायु प्रदेश)  
शीत समशीतोष्ण  
समशीतोष्ण-शीत स्टेपी

स्पॉडजोल्स - आर्द्र शीत समशीतोष्ण

लेटेराइट - ऊष्ण एवं आर्द्र

\* **अभिकथन (दाव) (A):** केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं।

**तर्क (कारण) (R):** केंचुए मिट्टी को महीन कर्णों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं।

–(A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

## प्रजाति/जनजातियां

\* खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं

–**शुष्क क्षेत्र में**

\* 'ऋतु-प्रवास' शब्द उपयोग होता है, जब

–**मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण-घाटी**

से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है।

\* नवीनतम मानव समझा जाता है

–**क्रोमैग्नन मानव को**

\* पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है

–**15 करोड़ वर्ष पूर्व**

\* वह महाद्वीप जो 'मानव जाति का जन्मस्थल' कहलाता है

–**अफ्रीका**

\* वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है

–**काकेशियाई**

\* जिप्सी लोगों का मूल स्थान था

–**भारत**

\* अफ्रीका की मूलभूत जनजाति 'पिग्मी' पाई जाती है –**कांगो घाटी में**


\* पिग्मी पाए जाते हैं

–**विषुवत रेखीय वनों में**

\* पिग्मी, कज्जाक, मसाई एवं लैप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है

–**पिग्मी**

\* घरों के जो चार प्रतिरूप दिए हैं, इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों के घर का है



–**प्रतिरूप (a) पिग्मी के घर का है।**

\* जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां, बड़ी संख्या में अन्य जातियों की, समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को कहते हैं –**मूलाधार (की-स्टोन) जातियां**

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I   | सूची-II                     |
|----------|-----------------------------|
| (जनजाति) | (देश)                       |
| एस्किमो  | कनाडा एवं ग्रीनलैण्ड        |
| मसाई     | केन्या                      |
| बदू      | सऊदी अरब                    |
| बुशमैन   | बोत्सवाना (कालहारी मरुस्थल) |
| खिरगिज   | मध्य एशिया                  |
| एनू      | जापान                       |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I                                                        | सूची-II                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन)                                   | (क्रियाकलाप)                         |
| कथाक                                                          | शिकार हेतु संकरी नाव                 |
| इनपुट                                                         | बर्फ का मकान                         |
| यूनियॉक                                                       | परिवहन हेतु नाव                      |
| स्लेज                                                         | कुर्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी |
| सेमांग लोग जहां के घने, उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह है- | —मलेशिया                             |

\* सही सुमेलन है-

| (जनजाति) | (देश)    |
|----------|----------|
| बरबर     | मोरक्को  |
| इन्हुइट  | कनाडा    |
| सेमांग   | मलेशिया  |
| वेद्दा   | श्रीलंका |

| (क्षेत्र)     | (जाति)  |
|---------------|---------|
| मध्य एशिया    | अल्पाइन |
| स्कैंडिनेविया | नार्डिक |

\* सही सुमेलन है-

| (जनजाति)    | (क्षेत्र/देश)  |
|-------------|----------------|
| मसाई        | पूर्वी अफ्रीका |
| रेड इंडियंस | उत्तरी अमेरिका |
| माओरी       | च्यूजीलैंड     |
| मायाझ       | ग्वाटेमाला     |

\* वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं

—आर्मेनिया

\* इन्हुइट लोग पाए जाते हैं

—कनाडा, रूस एवं अलारका से

\* जनजातियां एवं उनके अधिवास का सुमेलन है—

| जनजातियां | अधिवासित क्षेत्र                 |
|-----------|----------------------------------|
| फुलानी    | पश्चिमी अफ्रीका                  |
| बंतू      | पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका |
| मसाई      | पूर्व अफ्रीका                    |
| नूबा      | सूडान                            |

\* वह प्रदेश जो 'लैप्स' जनजाति के लिए प्रसिद्ध है —स्कैंडिनेविया

\* उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं —मंगोलायड प्रजाति से

## भाषाएं

\* एस्पेरान्टो (Esperanto) है

—विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा।

\* विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है —मंदारिन (चीनी)

\* वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है —कांगो गणराज्य

\* सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल हैं —मलय (राष्ट्रीय), तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनीज

## आर्थिक भूगोल

### (A). कृषि एवं पशुपालन

\* विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है —चीन

\* धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है —द्वितीय

\* चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है —भारत में

\* वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है —जापान में

\* संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है —चीन में

\* विश्व का 'धान जीन बैंक' स्थित है —फिलीपींस में

\* विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है —ब्राजील

\* विश्व में गन्ने का द्वितीय वृहत्तम उत्पादक है —भारत

\* विश्व में चुकन्दर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं —फ्रांस एवं रूस

\* वह देश जिसमें चुकन्दर से चीनी तैयार किया जाता है —यूक्रेन

\* विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है —चीन में

\* कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन (2014) विश्व में सर्वाधिक है —ऑस्ट्रेलिया

\* वह देश जो अरण्ड-तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक/निर्यातक है —भारत

|                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ★ विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है                                           | -भारत                                                                                        | ★ सही सुमेलन है-                                                                                                                                                            |
| ★ विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है                                     | -इंडोनेशिया                                                                                  | सूची-I<br>(फसलें)                                                                                                                                                           |
| ★ विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है                                  | -दूसरा                                                                                       | सूची-II<br>(क्षेत्र/देश)                                                                                                                                                    |
| ★ तम्बाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है                                     | -चीन                                                                                         | रबर                                                                                                                                                                         |
| ★ सही कथन हैं                                                                      | -चीन विश्व में तम्बाकू का वृहत्तम उत्पादक है,<br>भारत विश्व में ज्वार का वृहत्तम उत्पादक है। | कहवा                                                                                                                                                                        |
| ★ विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है                              | -थाईलैंड                                                                                     | जैतून                                                                                                                                                                       |
| ★ विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं                                   | -थाईलैंड एवं इंडोनेशिया                                                                      | गन्ना                                                                                                                                                                       |
| ★ श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई                                           |                                                                                              | सूची-I<br>(अग्रणी उत्पादक देश)                                                                                                                                              |
|                                                                                    |                                                                                              | सूची-II<br>(पदार्थ)                                                                                                                                                         |
|                                                                                    | -पर्ण किट्ट रोग के कारण                                                                      | चीन                                                                                                                                                                         |
| ★ विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं                                        | -ब्राजील तथा विएतनाम                                                                         | भारत                                                                                                                                                                        |
| ★ विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है               |                                                                                              | सऊदी अरब                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                              | थाईलैंड                                                                                                                                                                     |
| ★ विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है                                       | -केन्या                                                                                      | सही कथन है                                                                                                                                                                  |
| ★ सही सुमेलन है-                                                                   |                                                                                              | -उष्णकटिबंधीय बागान समुद्रतटीय तट के किनारे<br>झुंडों में पाई जाती हैं, अमेजन बेसिन में रबर की<br>कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं,<br>परंतु कर्मकारों की कमी है। |
| <b>सूची-I</b><br>(फसल)                                                             | <b>सूची-II</b><br>(उत्पादक क्षेत्र)                                                          |                                                                                                                                                                             |
| कहवा                                                                               | - साओ पालो पठार                                                                              | ★ बागान फसलें हैं                                                                                                                                                           |
| जूट                                                                                | - गंगा डेल्टा                                                                                | —कॉफी, रबर, मसाले तथा नारियल आदि।                                                                                                                                           |
| चावल                                                                               | - यांगटिसी मैदान                                                                             | ★ एक फसल प्रणाली, जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों<br>की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, वह कहलाती है                                                    |
| गेहूं                                                                              | - प्रेयरी मैदान                                                                              | —ऐले क्रॉपिंग                                                                                                                                                               |
| ★ सही सुमेलन है-                                                                   |                                                                                              | ★ 'एक फसली' कृषि विशेषता है                                                                                                                                                 |
| <b>सूची-I</b><br>(फसल)                                                             | <b>सूची-II</b><br>(उत्पादक क्षेत्र)                                                          | —व्यापारिक अन्न कृषि की                                                                                                                                                     |
| चावल                                                                               | सीक्यांग बेसिन (चीन)                                                                         | ★ चलवासी कृषि है                                                                                                                                                            |
| गेहूं                                                                              | हवांगहो बेसिन (चीन)                                                                          | —चेना, झूमिंग और मिल्पा इत्यादि                                                                                                                                             |
| चाय                                                                                | केंडी बेसिन (श्रीलंका)                                                                       | ★ तुंग्या कृषि जहां की जाती है, वह है                                                                                                                                       |
| ★ सही सुमेलन है-                                                                   |                                                                                              | —स्यांमारा                                                                                                                                                                  |
| <b>सूची-I</b>                                                                      | <b>सूची-II</b>                                                                               | ★ कथन (A) : एक पौधा जिसमें नत्रजन (नाइट्रोजन) की कमी है छोटे<br>कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण<br>दर्शाएगा।                                  |
| कोको                                                                               | - धाना                                                                                       | ★ कारण (R) : नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है।                                                                                                               |
| कहवा                                                                               | - आइवरी कोस्ट                                                                                | —(A) और (R) दोनों सही हैं और<br>(R),(A) का सही स्पष्टीकरण है।                                                                                                               |
| चाय                                                                                | - केन्या                                                                                     | ★ जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है                                                                                                                                 |
| गन्ना                                                                              | - दक्षिण अफ्रीका                                                                             | —राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम<br>और नीत हरित शैवाल                                                                                                                   |
| ★ यू.एस.ए. में कोना कॉफी का उत्पादन होता है                                        | -हवाई में                                                                                    | ★ 'एजोला-एनाबीना' जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है                                                                                                                          |
| ★ वह कृषि क्षेत्र जिसमें, छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता<br>होती है | -व्यापारिक बागवानी                                                                           | —चारोंत के लिए                                                                                                                                                              |
|                                                                                    |                                                                                              | ★ जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है                                                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                              | —एजोला                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                              | ★ धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग<br>में लाया जाता है                                                                                      |
|                                                                                    |                                                                                              | —नीत हरित शैवाल                                                                                                                                                             |

- \* 'अल्फाल्फा' है
  - कथन (A) :** किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है।
  - कारण (R) :** चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है।
  - (A) गलत है, परंतु (R) सही है।
  - \* पॉडजोल है —कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी
  - \* 'मोका' कॉफी जहां उगाई जाती है, वह है —यमन में
  - \* चाय में पाया जाता है —थीनाइन, कैफीन, पॉलिफेनाल्स, टेनिन, थीयोज्वोमाइन, थीयोफाइलिन आदि तत्व।
  - \* कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार 'ग्रीन बॉक्स' में सम्मिलित की जाती है
    - कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता
  - \* हेरोइन प्राप्त होती है —अफ्रीम पोस्ता से
  - \* 'स्वर्विम अर्धचंद्र' में सम्मिलित किया जाता है
    - अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को
  - \* वह देश समूह जहां मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है —मध्य अफ्रीका में
  - \* सैक्रामेन्टो-सॉन जोवाविन घाटी, जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस (नींबू-वंश) फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है
    - कैलिफोर्निया राज्य में
  - \* **कथन (A) :** यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है।
  - कारण (R) :** उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है।
    - (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
  - \* पहली बार उच्च उपज किसम बीज विकसित किए गए थे—मेकिस्को में
  - \* कथ्या बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, वह है —खेर
  - \* अफ्रीका में मूँगफली प्रमुख फसल है —गैम्बिया की
  - \* मूँगफली का मूल स्थान है —ब्राजील
  - \* 'शहतूश' जो विश्व का सबसे सुन्दर, गरम और हल्का ऊन माना जाता है, वह पैदा होता है —चीन (तिब्बत) में
  - \* शहतूश शाल बनाई जाती है —चिरु के बातों से
  - \* एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, जो सम्बन्धित है
    - शहद के उत्पादन से
  - \* 'विटीकल्चर' संबंधित है
    - अंगूर के उत्पादन से
  - \* सही सुमेलित है
 

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>खेती</b>      | <b>खेती का नामकरण</b> |
| फूलों की खेती    | फ्लोरिकल्चर           |
| फसलों की खेती    | ऐग्रोनॉमी             |
| सब्जियों की खेती | ओलोरिकल्चर            |
| फलों की खेती     | पोमोलॉजी              |
- \* रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है —चीन का (भारत का स्थान द्वितीय)
  - \* **कथन (A) :** ऑस्ट्रेलिया में गो पशु पालन (Cattle Rearing) जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है।
  - कारण (R) :** ऑस्ट्रेलियावासी परंपरागत (Traditionally) रूप से मांसाहारी हैं। —(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
  - \* विश्व की वृहत्तम पशुधन समस्ति है —चीन में
  - \* यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में 'बीफ' की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छति को किसने नष्ट किया —मैड काउ रोग ने
  - \* विश्व में सर्वाधिक दुर्घट उत्पादक देश है —भारत
  - \* दुर्घट के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है —भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन
  - \* मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है —सं. रा. अमेरिका
  - \* विश्व का 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है —क्यूबा को

## B. खनिज

### कोयला

- \* कोयला एक उदाहरण है —परतदार चट्टानों का
- \* कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं —जीवाश्मिक फ्यूल (ईंधन)
- \* सत्य कथन है
  - चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, यूक्रेन में डोनेट्स वेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अल्बेशियन प्रदेश में है।
- \* 'डोनबास' क्षेत्र प्रसिद्ध है —कोयला के लिए
- \* सही सुमेलन है-
 

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>सूची-I</b><br>(कोयला क्षेत्र) | <b>सूची-II</b><br>(देश) |
| डोनेट्स                          | - यूक्रेन               |
| कुजनेट्स्क                       | - रूस                   |
| लंकाशायर                         | - यू.के.                |
| सार                              | - जर्मनी                |
- \* 'पत्थर के कोयले' के भंडार में संसार में अग्रणी देश है —अमेरिका
- \* विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है
  - चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से
- \* रुर वेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है —जर्मनी का

- \* सर्वाधिक कोयला पाया जाता है –**अमेरिका में**
- \* विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है –**चीन**
- \* रुकवा झील क्षेत्र (तंजानिया) खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है –**कोयला**

## लौह अयस्क

- \* पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है –**लौह**
- \* विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है –**चीन**
- \* विश्व में लौह अयस्क के तीन अग्रणी उत्पादक हैं –**चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील**

- \* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(लौह अयस्क क्षेत्र)

| लौरेन    | — | फ्रांस    |
|----------|---|-----------|
| मिडलैंड  | — | यू.के.    |
| किरुना   | — | स्वीडन    |
| कोस्ताने | — | कजाखस्तान |

- \* फ्रांस का लौरेन प्रदेश प्रसिद्ध है-

**सूची-II**

(संबंधित देश)

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| लौरेन    | — | फ्रांस    |
| मिडलैंड  | — | यू.के.    |
| किरुना   | — | स्वीडन    |
| कोस्ताने | — | कजाखस्तान |

—**लौह व इस्पात उद्योग के लिए**

## अन्य खनिज

- \* संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है –**चिली**
- \* कथन (A) : विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है।  
कथन (R) : चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। **(A) और (R) दोनों सही हैं और (R),(A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।**
- \* अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि यहां –**समुद्री बंदरगाह** नहीं हैं।
- \* जापान लगभग आत्मनिर्भर है –**तांबा में**
- \* विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है  
—**1. चीन, 2. ऑस्ट्रेलिया, 3. रूस और 4. अमेरिका।**
- \* ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगूली विख्यात है –**स्वर्ण उत्पादन के लिए**
- \* कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है, वह है –**वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया**
- \* जोहॉन्सबर्ग विख्यात है –**स्वर्ण खनन हेतु**
- \* वह देश, जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है –**स्विट्जरलैंड**
- \* विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है –**मेक्सिको**
- \* बॉक्साइट कच्ची धातु है –**एल्युमिनियम की**

- \* विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है –**चीन**
- \* 'टिन' मिलता है –**प्लासर निक्षेपों में**
- \* संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक है –**चीन**
- \* संसार के तीन अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है –**सऊदी अरब, यू.एस.ए., रूस**

- \* विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है –**सऊदी अरब**
- \* मध्य-पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है –**सऊदी अरब, स.अ.अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत**
- \* कथन सही है –**मध्य-पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60 प्रतिशत भंडार पाए जाते हैं, अनास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित है, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों ही है।**

- \* दक्षिणी-पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है –**इंडोनेशिया**
- \* विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है –**वेनेजुएला में**
- \* वह देश, जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है –**संयुक्त राज्य अमेरिका**
- \* तेल की वैशिक कीमतों के संदर्भ में 'ब्रेंट कच्चे तेल' (Brent Crude Oil) का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है –**यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है।**

- \* वर्ष 2009 के पूर्वार्द्ध में पीस पाइप लाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था –**ईरान एवं पाकिस्तान के मध्य**
- \* वह देश, जिसमें 1857 ई. में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था –**रोमानिया**
- \* जैव ईंधन बनाया जा सकता है –**गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड एवं जेट्रोफा से**

## यूरेनियम

- \* संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है –**कजाखस्तान**
- \* वह देश, जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है –**कनाडा**
- \* दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश है –**कजाखस्तान**
- \* यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं –**ऑस्ट्रेलिया में**
- \* विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है –**ऑस्ट्रेलिया में**
- \* 'यूरेनियम सिटी' स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है –**कनाडा को**
- \* वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था –**पिच्लेंड**
- \* वह देश, जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है –**कनाडा**

# खनिज : विविध

\* प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है

—चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से

\* वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है

—निकेल, जरस्ता, तांबा, एल्युमीनियम

\* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(खनिज)

कोयला

सोना

लौह अयस्क

खनिज तेल

तांबा

**सूची-II**

(उत्पादक क्षेत्र)

— कारागंडा बेसिन

— हाई वेल्ड

— क्रिबोई रॉग

— सान जवाकिन धाटी

— ऐरिजोना

\* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(खनिज)

खनिज तेल

तांबा

मैंगनीज

बॉक्साइट

**सूची-II**

(प्रमुख उत्पादक)

— वेनेजुएला

— जाम्बिया

— गैबन

— गुयाना

\* सही सुमेलन है-

(क्षेत्र)

डॉन्बास बेसिन

मेसाबी

मोस्तुल

ट्रांसवाल

**(खनिज)**

— कोयला

— लौह अयस्क

— खनिज तेल

— सोना

\* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

लौह अयस्क

खनिज तेल

तांबा

यूरेनियम

**सूची-II**

मेसाबी

बाकू

बिंधम

पोर्ट रेडियम

\* बाकू की प्रसिद्धि है

—पेट्रोलियम के लिए

\* अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'मेसाबी रेंज' जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है, वह है

—लौह अयस्क

\* सही सुमेलित है-

**क्षेत्र**

किम्बर्ले

विटवाटर्सरेंड

कटांगा

सार

**खनिज**

— हीरा

— सोना

— तांबा

— कोयला

\* संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है

\* विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है

\* जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, वह है

\* सही सुमेलित है-

**देश**

बोलीविया

ब्राजील

मेक्सिको

पेरू

पेरू

\* हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है

\* ऊर्जा के वाणिज्यिक श्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं

—कोयला, तेल, गैस, जलविद्युत और यूरेनियम

\* अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है

—डी.आर. कांगो

—ऑस्ट्रेलिया

—नाइट्रेट

**खनिज**

टिन

लौह अयस्क

चांदी

नाइट्रेट

सोना

\* हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है

—रूस

\* ऊर्जा के वाणिज्यिक श्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं

—कोयला, तेल, गैस, जलविद्युत और यूरेनियम

\* अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है

—डी.आर. कांगो

## C.नगर और उद्योग

\* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(लौह-इस्पात केंद्र)

हैमिल्टन

बर्मिंघम

ऐसन

अंशन

**सूची-II**

(देश)

कनाडा

यूनाइटेड किंगडम

जर्मनी

चीन

\* सही सुमेलन है-

**सूची-I**

(केंद्र)

पिट्सबर्ग (यू.एस.ए.)

शंघाई (चीन)

झूंडी (स्कॉटलैंड)

लेनिनग्राद (सेंट पीटर्सबर्ग, रूस)

पोत निर्माण

**सूची-II**

(उद्योग)

लोहा एवं इस्पात

सूती वस्त्र उद्योग

जूट वस्त्र उद्योग

पोत निर्माण

**सूची-I**

(केंद्र)

सलेम

लॉस एंजेलेस

अबादान

नगोया

**सूची-II**

(उद्योग)

लौह एवं इस्पात

हवाई जहाज

तेल शोधन

सूती वस्त्र/ऑटोमोबाइल्स

\* सही सुमेलन है

**सूची-I**

डेट्रायट

मैनिटोगोर्स्क

जोहोन्सबर्ग

बर्मिंघम

**सूची-II**

ऑटोमोबाइल्स

लोहा तथा इस्पात

सोना खनन

लोहा एवं इस्पात

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I   | सूची-II               |
|----------|-----------------------|
| नगर      | उद्योग                |
| ओसाका    | वस्त्र उद्योग         |
| याकोहामा | पोत निर्माण           |
| ह्यूस्टन | तेल एवं प्राकृतिक गैस |
| अंशन     | लोहा व इस्पात         |
| हवाना    | सिगार                 |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I         | सूची-II               |
|----------------|-----------------------|
| चेल्याब्रिंस्क | धातु एवं सैन्य मशीनरी |
| मिलान          | रेशमी वस्त्र          |
| डेट्रायट       | ऑटोमोबाइल             |
| मॉस्को         | धातु, रसायन, मशीनरी   |

\* सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है-

| सूची-I  | सूची-II      |
|---------|--------------|
| शेफील्ड | कटलरी        |
| वेनिस   | कांच निर्माण |
| ग्लासगो | पोत निर्माण  |
| ओटावा   | कागज         |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I               | सूची-II           |
|----------------------|-------------------|
| (पोत निर्माण केंद्र) | (राज्य, यू.एस.ए.) |
| ह्यूस्टन             | टेक्सास           |
| स्प्यैरोज प्वॉइंट    | मेरीलैंड          |
| न्यू आर्लिंग्स       | लूझियाना          |
| कैमडेन               | न्यू जर्सी        |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I          | सूची-II         |
|-----------------|-----------------|
| (कोयला क्षेत्र) | (अवस्थिति)      |
| कुजबास          | रुस             |
| रेड बेसिन       | चीन             |
| ब्रिस्टल        | यूनाइटेड किंगडम |
| न्यू साउथ वेल्स | ऑस्ट्रेलिया     |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I             | सूची-II |
|--------------------|---------|
| (औद्योगिक क्षेत्र) | (देश)   |
| किनकी              | जापान   |
| कैण्टन             | चीन     |
| लोरेन              | फ्रांस  |
| बेलोहोरीजान्टले    | ब्राजील |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I      | सूची-II         |
|-------------|-----------------|
| क्लीवलैंड   | लोहा एवं इस्पात |
| मेसाबी रेंज | लौह अयस्क       |
| फिलाडेलिया  | पोत निर्माण     |

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I                   | सूची-II               |
|--------------------------|-----------------------|
| (औद्योगिक प्रदेश)        | (देश)                 |
| लंकाशायर प्रदेश          | यूनाइटेड किंगडम       |
| रुहर (रुर) प्रदेश        | जर्मनी                |
| कैहिन प्रदेश             | जापान                 |
| दक्षिणी अपेलेशियन प्रदेश | संयुक्त राज्य अमेरिका |

\* ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है - चीन

\* ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है - बुपरताल

\* विश्व में सूत्री वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है - चीन

\* "फूट लूज" उद्योग का एक उदाहरण है - सॉफ्टवेयर

\* वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है - इलेक्ट्रॉनिक्स

\* जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है, क्योंकि - उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है।

\* सत्य कथन है-

| सूची-I                         | सूची-II             |
|--------------------------------|---------------------|
| रुर औद्योगिक प्रदेश            | जर्मनी              |
| फैलर्स औद्योगिक प्रदेश         | बेल्जियम एवं फ्रांस |
| स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र     | यूनाइटेड किंगडम     |
| न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र | यू.एस.ए.            |

\* सत्य कथन है-

-खोई को, ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है; शीरे को, एथनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

\* कागज लुग्दी बनाने हेतु, काढ़ीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है - पोपलर

\* बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं - जापान में

\* कथन सही है-

-ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है।

\* जोहॉन्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन एवं सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है - लंदन

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I<br>(उद्योग) | सूची-II<br>(स्थान) |
|--------------------|--------------------|
| कागज               | - ओन्टेरियो        |
| रासायनिक           | - टेक्सास          |
| मोटर-कार           | - नागोया           |

\* अलेकजेंड्रिया समुद्रपत्तन है

-मिश्र का

\* पोर्ट डायमंड अवस्थित है

-दक्षिण अफ्रीका में

\* वह बंदरगाह जिसे विश्व के 'कॉफी बंदरगाह' (Coffee Port) के रूप में जाना जाता है

-सैन्टोस

\* विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है

-चीन

\* गवादर पत्तन अवस्थित है

-पाकिस्तान में

\* सही सुमेलित है-

| बंदरगाह      | देश          |
|--------------|--------------|
| राटरडम       | - नीदरलैंड्स |
| इगार्का      | - रूस        |
| माण्टेवीडियो | - उरुग्वे    |
| जकार्ता      | - इंडोनेशिया |

## परिवहन

\* कथन (A) : संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ-परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है।

कारण (R) : वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है।

-(A) और (R) दोनों सही हैं तथा

(R), (A) की सही व्याख्या करता है।

\* संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है

-उत्तरी अटलांटिक महासागर

\* दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में हवाई पत्तन आते हैं-

-बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे

\* पर्थ से लंदन तक का लघुतम वायुमार्ग है -पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन

\* लुफ्थांसा विमान सेवा है-

-जर्मनी की

\* सही सुमेलन है-

| सूची-I<br>(रेलमार्ग)       | सूची-II<br>(शहर)                               |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| यूरोपीय पार-महाद्वीपीय रेल | - पेरिस से वारसा                               |
| पार-एंडीज रेल              | - वालपरैजो से ब्यूनस आयर्स                     |
| पार-साइबेरिया रेल          | - सेंट पीटर्सबर्ग (लेनिनग्राड) से ब्लादिवोस्टक |
| ओरिएंट एक्सप्रेस           | - पेरिस से इस्तांबुल                           |

\* कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच चलती है, वह है

-मॉन्ट्रियल एवं वैकूवर

\* तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत 'यूरो सुरंग' द्वारा जुड़ने वाले देश हैं

-इंग्लैंड एवं फ्रांस

\* सीकान नामक लंबी रेल-सड़क सुरंग स्थित है

-जापान में

## मानचित्रण

\* समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है

-सममान रेखा मानचित्र (Isopleth) का

\* आइसोगोनिक रेखाएं हैं

-समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं

\* जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा कहलाती है

-आइसोबाथ

\* उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है

-समोच्च रेखा द्वारा

## विविध

\* संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्ययन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां -कोण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं।

\* ब्रैंड बैंक स्थित है

-उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर

\* भूगोल में नव-नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था

-जी. टेलर ने

\* अपनी पुस्तक "इन्ट्रोड्यूसिंग कल्वरल ज्यॉग्राफी" में जे.ई. स्पेन्सर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया है

-11 सांस्कृतिक प्रदेशों में

\* युग्म सुमेलित है-

मधेसी : नेपाल

रोहिंग्या : म्यांमार

\* सही कथन है-

-क्यूबा को विश्व का 'चीनी का कटोरा' कहा जाता है, हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है।

\* समान वर्षा गाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है

-आइसोहाइट

## पत्तन/बंदरगाह

\* जापान का सबसे व्यस्त समुद्रपत्तन है

-योकोहामा

\* ऑस्ट्रेलिया का पत्तन नगर नहीं है

-फैनबरा

\* विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है

-शंघाई

\* पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है

-शंघाई

\* वेनेजुएला में तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है

-मरकेबो पत्तन

- \* सही कथन है-
    - भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है।
  - \* सही सुमेलन है-
 

| सूची-I     | सूची-II      |
|------------|--------------|
| अर्जेटीना  | - पम्पास     |
| कनाडा      | - मनीटोबा    |
| मोरक्को    | - एटलस पर्वत |
| द. अफ्रीका | - किम्बर्ले  |
  - \* सही सुमेलन है-
 

| सूची-I    | सूची-II         |
|-----------|-----------------|
| ध्रुवतारा | उत्तर दिशा      |
| पृथ्वी    | गुरुत्वार्कर्षण |
| ग्रीनलैंड | आर्कटिक महासागर |
| विस्फोट   | ध्वनि           |
  - \* सही सुमेलन है-
 

| सूची-I                   | सूची-II       |
|--------------------------|---------------|
| (भौगोलिक स्वरूप)         | (देश)         |
| ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल | - ऑस्ट्रेलिया |
| ग्रैंड कैन्यन            | - यू.एस.ए.    |
| लेक विनीपेगा             | - कनाडा       |
| दक्षिणी आल्प्स           | - न्यूजीलैंड  |
  - \* विश्व में पहला परमाणु बिजलीघर स्थापित किया गया था
 

—अमेरिका में
  - \* सही सुमेलन है-
 

|                  |              |
|------------------|--------------|
| साइकन रेल सुरंग  | - जापान      |
| पेट्रोनास टॉवर्स | - मलेशिया    |
| अप्पलेशियन पथ    | - यू.एस.ए.   |
| रोगन बाँध        | - तजाकिस्तान |
  - \* 'बरमूडा त्रिभुज' अवस्थित है
 

—पश्चिमी-उत्तरी अटलांटिक महासागर में
  - \* बरमूडा त्रिकोण विस्तृत है
 

—बरमूडा, दक्षिणी फ्लोरिडा (मिपामी) प्लॉर्टिको में
  - \* सही सुमेलन है
 

| सूची-I           | सूची-II                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| स्वर्णिम त्रिकोण | - दक्षिण-पूर्व एशिया का अफीम                           |
| बरमूडा त्रिकोण   | - उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र |
| सुदूर पूर्व का   | - म्यांगार                                             |
| चावल का कटोरा    |                                                        |
| रेड बेसिन        | - चीन                                                  |
  - \* संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है
 

—केप कोनेडी में
- \* वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है
    - कनाडा
  - \* विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है
    - फ्रांस
  - \* पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है
    - उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके
  - \* कोपाक्वाना पुलिन अवस्थित है
    - रियो डी जेनेरियो में
  - \* विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है
    - भारत में
  - \* यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है
    - ब्रूसेल्स में
  - \* अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है
    - लंदन में
  - \* सही सुमेलन है-
 

(संस्था) (नगर)

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| अंतरराष्ट्रीय रेडक्रास सोसायटी | - जेनेवा    |
| अंतरराष्ट्रीय न्यायालय         | - द हेग     |
| यूरोपीय आर्थिक समुदाय          | - ब्रूसेल्स |
| खाद्य एवं कृषि संगठन           | - रोम       |
  - \* पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में सत्य कथन है-
    - भारत पूर्वी एशियाई मामतों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है, भारत अपने दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनःस्थापित करना चाहता है।
  - \* कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है, क्योंकि यह स्थित है
    - चीनी तिब्बत में
  - \* ऑस्ट्रेलियावासी क्रिसमस मनाते हैं
    - गर्मी के मौसम में
  - \* वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है
    - भारत
  - \* सार्क का मुख्यालय है
    - काठमांडू में
  - \* 'लीनिंग टॉवर ऑफ पीसा' स्थित है
    - इटली में
  - \* 'एलेसी पैलेस' स्थित है
    - फ्रांस में
  - \* उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला है
    - सारस
  - \* सबसे अधिक डाकघर वाला देश है
    - भारत
  - \* चर्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी
    - यूक्रेन में
  - \* 'लीप फॉरवर्ड पॉलिसी' के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी
    - चीन में
  - \* नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन
  - \* भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश (30 सितंबर, 2017) के अनुसार, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए
    - जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल
  - \* "40 कबीलों का देश" कहा जाता है
    - किर्गिजस्तान को
  - \* एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है
    - वेनिस शहर को

# Download All Subject Free PDF



General Knowledge



Child Development  
and Pedagogy



Current Affairs



History



Maths



Geography



Reasoning



Economics



Science



Polity



Computer



Environment



General Hindi



MP GK



General English



UP GK

Join Our Best Course

GK Trick By  
Nitin Gupta



Current Affairs



# Daily Current Affairs PDF, Best Test Series, Best GK PDF के लिए हमें Follow करें



GK Trick By Nitin Gupta  
The Ultimate Key to Success.

Welcome To

## GK TRICK BY NITIN GUPTA APP

यहाँ पर आपको मिलेगा

- ✓ Best PDF Notes For All Exams
- ✓ Best Test Series For All Exams
- ✓ Daily Current Affairs PDF
- ✓ सभी Course बहुत ही कम Price पर
- ✓ सभी Test Detail Description के साथ व Analysis करने को सुविधा

